

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 13—जनवरी 19, 2018 (पौष 23, 1939)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 13— JANUARY 19, 2018 (PAUSA 23, 1939)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2018

थल सेना विभाग

सं 9, दिनांक 5 जनवरी 2018—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

कमीशन की ज्येष्ठता

डी एस—12643के कप्तान मोहित राणा

— 28—12—2016

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28—06—2013 से दी जाती है। (इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

19 अगस्त 2017 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस-12641वाई कप्तान अखिल मित्तल — 28-12-2016

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28-12-2013 से दी जाती है। इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

19 अगस्त 2017 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस-12633ए कप्तान सागर दहिया — 28-12-2016

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28-12-2013 से दी जाती है। इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

19 अगस्त 2017 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस-12624वाई कप्तान करन पाडा — 28-12-2016

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28-12-2013 से दी जाती है। इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

19 अगस्त 2017 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

के जी कुमार देवैया
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

थल सेना शाखा

सं. 10, दिनांक 5 जनवरी 2018—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर

एस कपूर (एमआर-04725 एक्स)	—	01-09-17, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-01-17 से दी जाती है।
सी के जखमोला (एमआर-05877एल)	—	10-07-17, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-06-17 से दी जाती है।

विंग कमांडर (व समकक्ष) से ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) के पद पर

पीयूष रेनझेन (एमआर-06849एल)(एएफ-23472एफ)	—	08-03-17, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 15-02-17 से दी जाती है।
---	---	--

सर्ज कमांडर से सर्ज कैप्टन (कालमान) के पद पर

एमआर-06339एफ (75639-के)	सर्ज कमांडर	आशिष ज्योति	19 जून 2017
-------------------------	-------------	-------------	-------------

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (कालमान) के पद पर

एमआर-06594डब्ल्यू (एएफ-22492-जी)	विंग कमांडर	एम मुखर्जी	14 जुलाई 2017
----------------------------------	-------------	------------	---------------

बी श्रीधर
ब्रिगेडियर
उपमहानिदेशक स.से.चि.से.(मा.सं.)

थल सेना विभाग

सं. 11, दिनांक 8 जनवरी 2018—थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

ले. कर्नल (एवं समकक्ष) से कर्नल (एवं समकक्ष) पद पर

निजी संख्या	रैंक	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी आर-10458एक्स	ले कर्नल	आर एस वत्स	18-02-2010 (वैकल्पिक वरीयता 18-02-2010 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)
डी आर-10459ए	ले कर्नल	आई डी राय	18-02-2010 (वैकल्पिक वरीयता 18-02-2010 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)
डी आर-10466डब्ल्यू	ले कर्नल	पी के सिंह	15-03-2010 (परन्तु वैकल्पिक वरीयता 04-03-2010 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)
डी आर-10461एक्स	ले कर्नल	मुकुल कुमार	06-03-2010 (वैकल्पिक वरीयता 06-03-2010 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)
डी आर-10476ए	ले कर्नल	एम विश्वबरम	29-04-2010 (वैकल्पिक वरीयता 29-04-2010 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)
डी आर-10470वाई 79046 एफ	सर्जन कमा	एस एस चोपड़ा	28-05-2010 (वैकल्पिक वरीयता 28-05-2010 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)
डी आर-10452डब्ल्यू	ले कर्नल	आर के यादव	26-11-2010 (वैकल्पिक वरीयता 26-11-2010 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)

के जी कुमार देवैया
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं. 12, दिनांक 8 जनवरी 2018—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

मेजर से ले कर्नल

पर्सनल सं०	नाम	आर्म	ले० कर्नल दिनांक से
आई सी 60876	कपिल मलिक	आर्टी	09 जून 2017
आई सी 62325	प्रजापति दिनेश प्रभुजी	ए सी	08 जून 2015
आई सी 63116	सुरेश एन	इंजीनियर्स	24 अक्टूबर 2016
आई सी 66371	आशीष रॉव	इंजीनियर्स	24 अक्टूबर 2016
आई सी 63423	अमित कुमार दास	ए ए डी	13 दिसम्बर 2016
आई सी 63525	अभिषेक शर्मा	आर्टी	13 दिसम्बर 2016
आई सी 63678	अमन भारद्वाज	इंजीनियर्स	13 दिसम्बर 2016
आई सी 63762	युवराज नाथु गायकवाड	ए सी	12 जून 2017
आई सी 63773	गोन्टे रविंदरा घ्यानेश्वर	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63781	कुलवीर सिंह गिल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63782	कमल चौहान	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 63783	राघवेन्द्र सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017

आई सी 63784	अक्षय डोगरा	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63788	दिवी पाल सिंह राठोड	मैक	12 जून 2017
आई सी 63790	हिमकर वैद्य	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63793	नवीन कुमार कलालिया	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63800	निखिल शर्मा	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63802	शक्ति सिंह	ए सी	12 जून 2017
आई सी 63805	यजाद इलाविया	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63807	ओकेन्द्रा सिंह	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63811	दारा सिंह चहल	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63831	दिवान सिंह	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 63851	अर्जुन शिवाजी थोरत	मेक इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63854	रजनीश भारद्वाज	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63858	आनंद पाटिल	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63883	विशाल राना	ए वी एन	12 जून 2017
आई सी 63885	युवराज कृष्णरॉव पाटिल	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63896	कविश भाटली	ए वी एन	12 जून 2017
आई सी 63897	सालगर राघवेन्द्रा पृथ्वीराज	जी/मेक	12 जून 2017
आई सी 63905	राजा सुमित सिहाग	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 63909	अंकुश गुप्ता	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63911	मनीश पांडे	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63915	रोशन कुमार प्रधान	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63918	नीतिन खन्ना	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63924	राहुल	मैक	12 जून 2017
आई सी 63931	अभिषेक यादव	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63934	विजय रामचन्द्रा जाधव	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63940	दिवेश सिंह स्पेहिया	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63941	संजीव कुमार सिंह	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63943	दीपक कुमार	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63950	एम जे सजीव कुमार	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63965	सिद्धार्थ यादव	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63967	संजय कुमार बाजीया	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63975	कुलदीप सिंह	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 63978	आनंद सुब्बा मोरडिकई	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 63986	अमित पारोलकर	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 63991	सिद्धार्थ पाठक	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63995	अजिताब चंद ठाकुरी	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 64001	राजकुमार सोमनंदा सिंह	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 64002	अभिषेक कुमार	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 64005	एस दुबे	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64011	आर विजय आनंद	मैक	12 जून 2017
आई सी 64026	विनोद कुमार एम वी	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 64042	सुश्री चंदन रे	इंफैंट्री	12 जून 2017
आई सी 64048	पुनीत दिलावरी	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64052	हर्षवर्धन	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 64061	अजय सांगवान	आर्टी	12 जून 2017

आई सी 64064	शौरव सिंह	ए वी एन	12 जून 2017
आई सी 64071	भुपेन्द्र सौलंकी	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 64083	विशेक वालिया	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64088	पौरुश प्रधान	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64089	शौमिक शेनगुप्ता	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64097	रवि कुमार त्यागी	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64099	मनोज कुमार यादव	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64101	मुकेश ढोगरा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64106	एम डेविड अचोव सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64122	सिंह भारत	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 64140	दिलीप एस	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64143	सूर्य भान सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64170	प्रशांत सिंह काशीवाले	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64173	आशीष कुमार पाठक	जी/मैक	12 जून 2017
आई सी 64184	निमिश त्रिवेदी	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 64199	आर रमेश	ए वी एन	12 जून 2017
आई सी 64205	अभिजीत दत्ता	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64213	रतन दीप सिंह गुजराल	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 64217	मयंक सुंदीयाल	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 64231	सामरेन्द्र किशोर	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 64239	जिम्मी थोमस	ए वी एन	12 जून 2017
आई सी 64257	गुरप्रीत सिंह कालरा	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64303	बालु भारत	ए ई सी	12 जून 2017
आई सी 68377	जस करण सिंह बाजवा	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68385	कुलदीप सिंह	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68397	मनोज कुमार	इंजीनियर्स	13 जून 2017
आई सी 68400	प्रभजोत सिंह	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68402	करुपानंद वी सहर्षबुधे	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68405	भारत भुषण	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68407	एन लोंगसिबेमो ओडियो	इंजीनियर्स	13 जून 2017
आई सी 68413	चेतन महेशवरी	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68434	अभिमन्यु शर्मा	इंजीनियर्स	13 जून 2017
आई सी 68437	राजेश प्रसाद सिंह	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68442	अनन्या मोहिले	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68443	आर पोथीराजन	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68444	के वी विनायक	इंजीनियर्स	13 जून 2017
आई सी 63763	पी लोकचंदर	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63764	अरविंद कुमार खिचर	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 63765	शैलेन्दर सिंह	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 63766	वरुण सिंह जांवल	ए सी	12 जून 2017
आई सी 63767	तेजिंदर सिंह	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 63769	जसवंत सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63770	राजा वांगडी शेरपा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63771	मनीश मिश्रा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63772	जसबीर सिंह	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 63774	प्रभजोत सिंह शेखों	सिग्नलस	12 जून 2017

आई सी 63775	सुरेन्द्र सिंह ढिल्लन	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63778	कमलदीप पंवार	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63779	प्रीत मोहन सिंह	ए वी एन	12 जून 2017
आई सी 63780	पुन्याबाची मोहन्ती	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63785	गौरव सोनी	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63786	पल्लव सूद	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 63787	नीतिन शिवाजीरॉव भिकाने	ए वी एन	12 जून 2017
आई सी 63789	दुषिंत हनामंत सोनावने	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63791	शौरभ चांदे	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63792	अमरिंदर सिंह बादवल	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 63795	घाघ सूजे शिवाजी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63796	गौरव शर्मा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63797	अमित शर्मा	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63799	हिमांशु बाली	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 63801	राजेन्द्र कुमार	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63803	पीयूष मिश्रा	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63804	संजीत सिंह कादर्यॉन	जी मेक	12 जून 2017
आई सी 63806	इरफान अहमद खान	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63809	तुषार घसमाना	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63810	मोहिन्दर पाल सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63812	अक्षय ए चतुर्वेदी	ए सी	12 जून 2017
आई सी 63813	कंडूकूरी विश्वानाधाम	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63815	अर्जुन सिंह बोहरा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63816	सचिन अभिमन्यु पाटिल	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63817	सी श्रीनिवास	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63818	विग्नेश बेलियप्पा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63819	उदय छत्रपति बोरुडे	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63822	शैलेन्द्र प्रताप सिंह	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 63824	मनीष रमेश लांजेकर	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63825	अंशुल शर्मा	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63826	सुरजीत समल	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 63827	मनीष डागर	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 63828	नीतिन खन्ना	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 63829	अरविंद वेन्नुर	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63830	जसबिंदर बीर सिंह जज	ए सी	12 जून 2017
आई सी 63832	सुदीश जोसफ वर्गीज	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63833	अभिनव झा	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 63834	अभिषेक गोस्वामी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63835	हेमंत कुमार	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63836	मनोज कुमार यादव	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 63837	अमित कुमार दास	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63838	अनुज त्यागी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63840	उमेश गिरी	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 63842	संदीप श्रीवास्तवा	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63844	हेम चन्द्रा सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63846	सुमित्रा एस मिश्रा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017

आई सी 63847	पी श्रीनिवास	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63848	सुखजीत सिंह संधु	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 63849	जामवंत सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63850	करन सागर	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63852	शिव कुमार सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63859	गौरव गर्ग	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63861	वरुण विजय गिद्ध	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63862	विवेक पाठक	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63864	राम सिंह	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 63865	चिनगंगबम प्रनब सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63868	शौरभ मामगैन	मेक इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63869	थोमस जेकब	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63870	नीतिन मुदगल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63872	मयंक शर्मा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63873	मनोज कुमार नायर	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63874	जतिन गुलेरी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63875	अभिषेक चौधरी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63876	नवाजेश एन पटेल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63878	अमित पुनिया	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63879	अरुण कुमार ठाकुर	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63880	सुरिंदर	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 63887	हनुमान राम	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63888	पीटर शेखोलाल तोउथांग	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63891	आशुतोष शुक्ला	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 63892	तुषार प्रतापरॉव जादव	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63894	जितेन्द्रा भिरोरिया	ए वी एन	12 जून 2017
आई सी 63895	बेजजांकी मिथुन कुमार	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63898	जगप्रीत सिंह मिधा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63899	गुरविंदर सिंह बाजवा	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 63900	विवेक कुमार	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63901	अमित शर्मा	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 63902	तरुण गौरव	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63903	वरुण सिंह मल्हान	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 63906	मोनाक्र साध	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 63908	विनय कुमार	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63910	मनीष दहिया	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63912	एस जगादिसान	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 63913	राजकुमार यादव	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63914	कुमार वैभव	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63916	कंवर रोहित	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63917	अमित कुमार	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63919	गौरव आनंद	ए वी एन	12 जून 2017
आई सी 63920	दिपांकर डे	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63921	सुमित शर्मा	ए एस सी	12 जून 2017

आई सी 63923	राजेन्द्र प्रसाद	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63925	बिमल मिश्रा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63926	आशुतोष कुमार	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63927	ए एस पन्नू	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 63928	कुनाल रमेश लोनारी	ए सी	12 जून 2017
आई सी 63932	अमितेन्द्रा कुमार सिंह	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63933	के सतिश प्रभु	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 63935	नरेश कुमार चौहान	इंट	12 जून 2017
आई सी 63937	हेमंत कांडपाल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63938	गणेश शंकर विद्यार्थी	इंट	12 जून 2017
आई सी 63942	मनीष सिंह चौहान	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63944	विकास लोचाब	ए वी एन	12 जून 2017
आई सी 63946	अंशुल गौड	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63947	शमशेर सिंह देवल	ए सी	12 जून 2017
आई सी 63949	राजेश कुमार श्रीवास्तवा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63951	सुदीप सिंह सांगवान	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63952	एन निरंजन सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63953	जौदव संदीप अशोक	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63954	रिशब पालीवाल	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 63955	राजेश जोशी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63956	मलयकांत माधवकांत	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63957	अनिल कुमार	इंट	12 जून 2017
आई सी 63958	संदीप भारद्वाज	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 63959	संदीप सिंह गंधोक	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63961	एन एस भोसले	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 63962	पाटिल श्री विकास	इंट	12 जून 2017
आई सी 63963	आशुतोष श्रीवास्तवा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63964	भंवर राकेश शेखावत	जी/मेक	12 जून 2017
आई सी 63966	संदीप धनकड	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63969	जे नारायनन	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63970	अमित कुमार झा	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63972	पंकज कुमार	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63974	अनित गौतम	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63976	आशुतोष चौहान	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 63977	अविनाश सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63981	कुलदीप अशोकराव करापे	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63982	प्रवीन होस्माने	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63983	बिकाश मुखिया	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 63984	अंकुर सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63987	ए एस बिष्ट	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63988	एन सुदरम	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 63990	कपिल रिक्की	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63992	रूपेश	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 63994	योगेन्द्रा रॉय सिद्धी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63996	कुश कश्यप	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63997	कोशलेन्द्र सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017

आई सी 63998	गौरव श्रीवास्तवा	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 63999	पंकज कुमार	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64000	सुंदीप शंकर	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64003	गगनदीप सिंह ससन	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64006	नवनीत गर्ग	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64007	विकास यादव	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64008	अमिश रस्तोगी	ए सी	12 जून 2017
आई सी 64009	तमन परमार	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 64010	ओलेटी लक्ष्मी वीरा नरेश	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64012	बिरेन्द्र पाल सिंह	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 64013	करमजीत सिंह यादव	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64014	बिक्रमजीत सिंह नजोत्ता	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64015	राहुल मित्तल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64018	अनिमेश मित्तल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64019	अमित शर्मा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64020	मनीश नेगी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64021	अनीश वाशुदेवन	ए वी एन	12 जून 2017
आई सी 64022	उप्यन जीत सिंह	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 64023	सुनील अत्री	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64025	रंजीत सिंह यादव	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64029	उदय प्रताप चौरसिया	इंट	12 जून 2017
आई सी 64030	अनंत रस्तोगी	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 64033	कुमार शौरभ	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 64034	रजत	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64035	अंकित कंजोलिया	मेक	12 जून 2017
आई सी 64036	जीवन प्रीत सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64037	पी एस मनी कंदन	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 64038	सुरेन्द्र सिंह नेगी	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64039	प्रवीन कुमार शर्मा	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 64040	आशीष देवलियाल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64041	संजीव कुमार ग्रोवर	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64043	राजीव कुमार झा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64044	अखिल धवन	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64045	अनिमेश तमंग	इंट	12 जून 2017
आई सी 64046	सुरेन्द्र सिंह	जी/मेक	12 जून 2017
आई सी 64056	नगेन्द्रा सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64057	राजेश ग्रेवाल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64058	अजय पाल सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64059	अनिमेश दुबे	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64060	अशोक भंडारी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64062	प्रदीप सिंह नेगी	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64063	संदीप धनकड	मेक	12 जून 2017
आई सी 64066	अतुल रावत	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64067	अमित अरविंद मलकार	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64069	संजय	इंफैन्ट्री	12 जून 2017

आई सी 64070	अजय कैथ	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64073	सर्वेश्वर सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64074	शिशिर जुनेजा	ए सी	12 जून 2017
आई सी 64075	चौधरी आशीष कुमार मिश्रा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64076	विपुल कुमार	मेक	12 जून 2017
आई सी 64078	राहुल रंजन भारती	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64079	मनीश पंत	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64081	सतीश कुमार वी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64082	नोपेन्द्र राना	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 64084	पुनीत बोखंडी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64087	सर्वेश शर्मा	ए वी एन	12 जून 2017
आई सी 64091	आशुतोष थापलियाल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64092	होपेन्द्र ठाकुर	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64093	राहुल वैजनाथ माने	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 64094	कुलकर्णी रनजीत दिलीप	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64096	जोनाथन दीपक सेमुअल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64098	आर एस सलाथिया	ए सी	12 जून 2017
आई सी 64102	मृनाल कुमार शेखर	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64105	मिश्रा अनुपम कुमार	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64108	उपेन्द्र पाल सिंह	ए सी	12 जून 2017
आई सी 64109	विकास यादव	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64110	पवन ब्रह्ममा	इंट	12 जून 2017
आई सी 64111	सर्वेश कुमार शर्मा	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64112	गिजो जे ओझककल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64113	मोमिन आतिफ इरफान	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64115	सुजीत कुमार कृष्णन	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64117	नील उपमन्यु	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64118	राजीव भण्डारी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64119	प्रमोद यादव	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64121	अनिल कुमार मिश्रा	जी/मेक	12 जून 2017
आई सी 64123	सिद्धेश्वर प्रसाद द्विवेदी	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64124	उगेन नामदोल मैकपेन	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64125	मीहिर कुमार झा	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 64126	मुनीश शर्मा	ए सी	12 जून 2017
आई सी 64127	आशीष सजगोतरा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64128	नवीन मेहरा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64130	राने राहुल जगदीश	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 64131	मोहित चौहान	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64132	अनुराग वर्मा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64133	विजय कुमार	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64134	तनमय पंत	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64135	वनम वेदविशवा प्रकाश	इंट	12 जून 2017
आई सी 64137	रामाशरे यादव	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 64138	अंकुर कुलश्रेष्ठा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64139	आशुतोष चन्द्रा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017

आई सी 64141	करन भागरा	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64142	अभिषेक चौधरी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64144	राहुल गुप्ता	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 64146	तरुण कुमार तिवारी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64147	अक्षय सिंह राना	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 64149	विक्रम नेगी	ए ओ सी	12 जून 2017
आई सी 64150	अरिंदम देब रॉय	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64151	रजत ढाका	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64153	पुनीत पुरी	ए सी	12 जून 2017
आई सी 64154	भुपेश बिष्ट	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64155	बलविंदर सिंह	ए ए डी	12 जून 2017
आई सी 64156	शेखर वालिया	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64157	रोहित मेहरा	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64158	तेजिन्दरपाल सिंह नागी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64160	नीतिन सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64161	जे आदिनारायणा रेडडी	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 64162	ज्योति लामा	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64165	रवि शंकर राजन	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 64166	प्रमोद कुमार कंवर	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64167	मुनिशवर रॉव पाठक	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 64168	विक्रम विशाल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64169	शुभ्रा डे	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64171	अजय सिंह रावत	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64172	अजय कुमार	ए सी	12 जून 2017
आई सी 64174	कपिल देव शर्मा	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64175	गोपाल सिंह पतियाल	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64178	माक्रण्डे जी	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64179	अभिषेक सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64180	अनिरुद्ध रॉव एच आर	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64181	भाटिया अमनजीत सिंह	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 64182	मयंक बोरा	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64183	रोहित डोनगॉवकर	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64186	प्रदीप गागैन	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64188	जयदीप चट्टोपाध्याय	ए सी	12 जून 2017
आई सी 64189	भीषम कुमार	मेक	12 जून 2017
आई सी 64190	मृगंक मयूख	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64191	एल सुरेश कुमार	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64192	डांडू विजय रेडडी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64193	हितेन्द्र सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64194	अजय पतियाल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64195	प्रणव कोरंगा	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64196	तरकेशवर अमोल	ए सी	12 जून 2017
आई सी 64197	ग्यानेश्वर शर्मा	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64200	एस उज्जवल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64201	सुशील कुमार महापात्रो	ए ई सी	12 जून 2017

आई सी 64204	दुष्यंत पुनीया	ए एस सी	12 जून 2017
आई सी 64206	मोहित तिवारी	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64208	इकबाल सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64212	शशांक मियां	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64214	ए आर मित्रा	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64215	अमित नेगी	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64216	हिमांशु राना	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64218	संदीप गागैन	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 64219	गुरमीत सिंह विरदि	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 64221	केलकर श्रीकृष्णा भरत	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 64222	रविन्दर भाटिया	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64225	हेनरी पशरिजा	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64226	लक्ष्यजीत सिंह चौहान	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64228	तुषार सिंह	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64229	रिपुदमन	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 64230	गौरव भाटिया	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 64232	अजित यादव	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64233	अतुल चन्द्र श्रीवास्तव	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 64234	नीतेश अग्रवाल	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64236	अमरेश्वर सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64238	नितेश नागपाल	ए वी एन	12 जून 2017
आई सी 64240	सोम प्रकाश शर्मा	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64241	अक्षय साती	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 64242	मंदीप सिंह	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64243	विवेक सिंह परिहार	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64244	योगेश कुमार	इंट	12 जून 2017
आई सी 64246	मुरली किशोर वेलागदा	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64247	सुमीत सिंह	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 64248	आशीष पतवाल	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 64250	आनंद कुमार	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 64251	संकेत सेठ	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64252	मनोजीत दास	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64253	कमल भारद्वाज	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 64255	मानस वर्मा	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64259	रोबर्ट टी ए	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 64261	अमित पाण्डे	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64265	आशीष नेगी	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 64268	अभिषेक अग्निहोत्री	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64269	राहुल लिंगवाल	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 64271	अनुज कुमार त्रिपाठी	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 64274	अप्पाला अभिषेक	ई एम ई	12 जून 2017
आई सी 64277	अक्षय शिव	इंजीनियर्स	12 जून 2017
आई सी 64278	हेमेन्द्र कौशिक	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 64287	चन्द्र प्रकाश	ए ई सी	12 जून 2017
आई सी 64296	राम नरेश शर्मा	ए ई सी	12 जून 2017

आई सी 64320	राकेश कुमार	ए ई सी	12 जून 2017
आई सी 64384	अनंत थपन	ए ई सी	12 जून 2017
आई सी 64387	अनिल कुमार	ए ई सी	12 जून 2017
आई सी 68372	दीपक घलहोत्रा	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68373	हितेन्द्र यादव	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68376	वरुण चन्द्र	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68378	अंकित गुप्ता	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68379	भट्ट अनंत राजेश कुमार	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68380	कुलदीप यादव	इंजीनियर्स	13 जून 2017
आई सी 68381	रामेन्द्रा दत्ता माथुर	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68386	अमित अग्रवाल	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68389	मयंक नागपाल	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68390	एस वी अशोक	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68391	एस प्रदीप	इंजीनियर्स	13 जून 2017
आई सी 68394	नागरकर प्रताप राममोहन	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68395	राजबीर सिंह विक्र	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68396	लोहाकरे नैनिश भास्कर	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68399	राजुरकर अनिरुद्ध दत्तारॉय	इंजीनियर्स	13 जून 2017
आई सी 68401	ऋतु राज सिंह	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68403	सचिन चेतल	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68404	लक्ष्मिशा सुवर्णा	इंजीनियर्स	13 जून 2017
आई सी 68406	एस एम मोहन	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68410	वरुण छाबडा	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68411	अजय सांवल	ए ए डी	13 जून 2017
आई सी 68412	वरुण प्रकाश	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68414	प्रशांत शंडिलया	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68415	नवतेज सिंह रंधावा	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68416	नीतिन लंगेह	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68417	पोनप्पा एम बी	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68421	निमित सूरी	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68422	कुलकर्णी तनमय राजीव	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68426	कार्तिक सी	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68428	मनीश कुमार यादव	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68429	मोनिन्द्रा मसिया	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68430	नवीन डागर	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68435	माहिल जैन	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68436	शरथ एम यू	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68438	मुकेश कुमार सिंह	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68441	राजा शेखर एम	इंजीनियर्स	13 जून 2017
आई सी 68445	अपूर्वा ए भटनागर	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68446	सूजित एस नायर	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68447	स्वागत कुमार पात्रा	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68448	आदित्य निगम	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68449	भरत कुमार	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68450	संतोष कुमार	ई एम ई	13 जून 2017

आई सी 68454	पवार उमेश अंकुश	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68458	पल्लव कातियाल	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68459	निखिल कुमार	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68460	अभिषेक कोशल	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68461	धीरज कुमार जसरोठिया	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68462	सुजीत एस जोशी	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68465	देशमुख सुजीत दौलत	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 68468	सचिन निमबालकर	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68470	विक्रम सिंह	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 63798	रोहित सूरी	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 63936	अभिषेक शर्मा	ए सी	12 जून 2017
आई सी 63968	कमलेश कुमार	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64085	मृदुल खंडेलवाल	आर्टी	12 जून 2017
आई सी 64107	रविंदर सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64159	पंकज अग्रवाल	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
आई सी 64272	गौरव नेगी	सिग्नलस	12 जून 2017
आई सी 68387	प्रसाद मंदगौवकर	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68425	जी अनुराग किरन	सिग्नलस	13 जून 2017

पर्सनल सं.	नाम	आर्म
आई सी — 64775	बोरकर कुनाल एस	इंजीनियर्स

—11 दिसम्बर 2015

पर्सनल सं.	नाम	आर्म
आई सी 65742	एम सिंह	ई एम ई

—07 मई 2016

आई सी सं.	नाम	आर्म	ले0 कर्नल दिनांक से
65908	हरमीक सिंह	ए ओ सी	06 मई 2017
65910	पोफले दिनेश अनंत	इंट	06 मई 2017
65923	अमित यादव	ए ओ सी	06 मई 2017
65925	शिशिर क्षेत्री	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65932	अमित इस्सार	ए सी	06 मई 2017
65933	सुंदर राज	ई एम ई	06 मई 2017
65938	इनोस मैसी	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65939	रोमैल	ए ओ सी	06 मई 2017
65940	सुदिप्ता पोती	ए एस सी	06 मई 2017
65943	टी सतीस बाबू	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65955	तरुण साहनी	आर्टी	06 मई 2017
65965	अनुप राना	ए ओ सी	06 मई 2017
65967	अथुल श्रीधरन	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
65969	आलोक सिंह	इंजीनियर्स	06 मई 2017
65978	नवीन एन	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
66003	वाई सुरेश कुमार	ए सी	06 मई 2017
66010	कुलवीर सिंह गहलावत	ई एम ई	06 मई 2017
66012	यशीका ए वोमी	इंफैन्ट्री	06 मई 2017
66014	तनदीप डिनडसा	आर्टी	06 मई 2017

पर्सनल सं.	नाम	आर्म
आई सी —67831	राकेश सिंह	इंजीनियर्स

—14 दिसम्बर 2016

आई सी सं.	नाम	आर्म	ले0 कर्नल दिनांक से
आई सी 68433	शुक्ला अतुल कुमार सुरेश	ई एम ई	13 जून 2017
आई सी 68439	बिक्रमजीत सिंह	सिग्नलस	13 जून 2017
आई सी 72795	एम दानिश सिद्दिकी	इंजीनियर्स	21 अप्रैल 2017
आई सी 72796	गौरव साहनी	ई एम ई	21 अप्रैल 2017
आई सी 72798	जगदेव सिंह यादव	ई एम ई	21 अप्रैल 2017

एस सी सं.	नाम	आर्म	ले0 कर्नल दिनांक से
00258	निशान सिंह	आर्टी	24 अक्टूबर 2016
00379	बलबीर सिंह	आर्टी	24 अक्टूबर 2016
00462	सरवनन थांगावेलु	ए ओ सी	12 जून 2017
00466	थमपन ए	ए सी	12 जून 2017
04778	बिजू एस	एस एल बी/आर	03 जुलाई 2017
04811	प्रदीप कुमार	एस एल आर ओ	03 जुलाई 2017
04812	पोली अब्राहम	एस एल आर ओ	03 जुलाई 2017

एस एल सं.	नाम	आर्म
04775	बी जयाशंकरन	एस एल बी/आर
04777	भोसले शशीकांत कुंडीक	एस एल बी/आर
04780	कीर्तन सिंह	एस एल आर ओ
04781	संजीवा कुमार	एस एल ई/एम
04782	भारत भूषण चौहान	एस एल आर ओ
04783	मदन गोपाल कुमावत	एस एल टी ओ टी
04784	अजय कुमार कर्ण	एस एल आर ओ
04785	थोमस पी के	एस एल टी ओ टी
04786	पॉल वर्गीज	एस एल टी ओ टी
04787	डी राजेश	एस एल टी ओ टी
04788	विक्रम गायकवाड	एस एल ए ई
04789	हंस राज	टी ई ओ (आर्टी)
04792	अनिल कुमार	एस एल आर ओ
04793	आफताब अहमद	एस एल आर ओ
04794	के उपेन्द्र वर्मा	साइफर
04795	गोविंदन कुट्टी नायर	एस एल आर ओ
04796	ईश्वर सिंह	एस एल आर ओ
04797	जी वेटरीवेल	एस एल ए ओ सी
04798	अर्जुन सिंह	एस एल आर ओ
04799	श्री कुमार वी आर	एस एल आर ओ
04800	एम मनीवननन	एस एल आर ओ
04801	पी ओम गणपती	एस एल आर ओ
04802	हरी कुमार पी वी	एस एल आर ओ
04803	हरीदशन इडालथ	एस एल आर ओ

04805	जॉनी पी के	एस एल आर ओ
04806	अजीथा बी के	एस एल आर ओ
04809	राधाकृष्णा पिल्लई के वी	एस एल ए ओ सी
04810	सुकुमारन पी	एस एल आर ओ
04815	धीरेन्द्र कुमार सिंह	एस एल आर ओ
04816	दीपक शर्मा	एस एल आर ओ
04817	के उन्नीकृष्णन	एस एल आर ओ
04819	राकेश कुमार	एस एल आर ओ

—03 जुलाई 2017

एस एस सं०	नाम	आर्म	ले० कर्नल दिनांक से
40274	सोनावने संजय कुमार बबनरॉव	आर्टी	06 मई 2017

अल्पकालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यू एस)

मेजर से ले. कर्नल

डब्ल्यू एस सं०	नाम	आर्म	ले० कर्नल दिनांक से
00785	सुरभि शर्मा	इंजीनियर्स	24 अक्टूबर 2016
01115	मधु राणा	ई एम ई	17 मार्च 2017

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आई सी सं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
74835	खिरोडो कुमार पात्रो	इंट	11 दिसम्बर 2016
74848	दिनेश प्रसाद	आर्टी	11 दिसम्बर 2016
74893	अमित डबास	इंफैन्ट्री	11 दिसम्बर 2016
74925	संजय गिरिश नाम्बियार	इंजीनियर्स	11 दिसम्बर 2016
75085	रविन्दर सिंह रावत	इंट	11 दिसम्बर 2016
75149	सूर्य श्रीधर	इंजीनियर्स	11 दिसम्बर 2016
75217	ऐश्वर्या बर्थवाल	ई एम ई	11 दिसम्बर 2016
75221	निरज सिंह	ई एम ई	11 दिसम्बर 2016
75554	पारितोष रावत	आर्टी	11 जून 2017
76322	अमनदीप सिंह	ए ए डी	12 दिसम्बर 2016
76399	क्षितिज विशाल	इंट	12 दिसम्बर 2016
76972	सचिन कुमार	इंजीनियर्स	12 जून 2017
76978	परमजीत सिंह	इंफैन्ट्री	12 जून 2017
76982	प्रवीण कुमार के	ई एम ई	12 जून 2017

आई सी सं.	नाम	आर्म
75296	रामकुमार बी	इन्फैन्ट्री
75297	राघव स्वरूप गुप्ता	इन्फैन्ट्री
75298	शिंदे प्रशांत पंढारीनाथ	ए सी
75299	रोहित शेखर	इन्फैन्ट्री
75300	सौरभ काबरा	इन्फैन्ट्री
75301	सुवीर राठौर	इन्फैन्ट्री
75302	अभिमन्यु शर्मा	इन्फैन्ट्री
75303	नरेन्द्र सिंह शेखावत	इन्फैन्ट्री

75304	पार्थ चंदेल	इन्फैन्ट्री
75305	पीयूष सिंह	आर्टी
75306	मोहित शर्मा	ए एस सी
75307	वसू बनाथिया	इन्फैन्ट्री
75309	अभिषेक शर्मा	इन्फैन्ट्री
75310	हिमांशु थपलियाल	मैक इन्फैन्ट्री
75311	दिनेश चाहर	आर्टी
75312	शक्ति सिंह	आर्टी
75313	जुनैद बिनी सैय्यदेन बेग	ए सी
75314	टी अनुराग	इन्फैन्ट्री
75315	मनोज कन्वल	ए ओ सी
75316	अर्जुन पंवर	इंजिनियर्स
75317	अमित कुमार	इन्फैन्ट्री
75318	हुमेश टुटेजा	आर्टी
75319	विनायक गुप्ता	आर्टी
75320	श्वेतांक त्यागी	आर्टी
75321	दिवाकर कुमार	ए ओ सी
75322	आनन्द नाशिकर	इन्फैन्ट्री
75323	अक्षय राजेन्द्र पिसल	आर्टी
75324	शाश्वत कुमार	आर्टी
75325	आनन्द कुमार तिवारी	इन्फैन्ट्री
75326	लोकेन्द्र पटेल	एविएशन
75327	सार्थक त्यागी	इन्फैन्ट्री
75328	सुशांत गौड़	आर्टी
75329	सी वी एस निखिल	इन्फैन्ट्री
75330	प्रवेश कुमार	इन्फैन्ट्री
75331	संदीप पटनायक	ए एस सी
75332	गोपा कुमार जी	इन्फैन्ट्री
75333	सिंह अभिषेक नेपाल सिंह	इन्फैन्ट्री
75334	आशुतोष शुक्ला	आर्टी
75335	पंकज बिष्ट	इन्फैन्ट्री
75336	भुवन विक्रम	आर्टी
75337	सुखविन्दर सिंह	ई एम ई
75338	दयानंद सिंह	इन्फैन्ट्री
75339	नकुल शर्मा	इन्फैन्ट्री
75340	अमेत विक्रम	इन्फैन्ट्री
75341	सुधीर कुमार काला	ए सी
75342	समरजीत सिंह देहल	इन्फैन्ट्री
75343	अमित कुमार त्यागी	इन्फैन्ट्री
75344	अर्द्धेन्दु कुमार	मैक इन्फैन्ट्री
75345	मयंक मिश्रा	आर्टी
75346	राजीव कुमार साहू	सिग्नल्स
75347	नीरज नन्दकुमार	आर्टी
75348	प्रवीण कुमार तिवारी	इन्फैन्ट्री
75349	सुमन्त त्यागी	आर्टी

75350	अखिल कुमार त्रिपाठी	इन्फैन्ट्री
75351	अमर विजयकुमार बोम्बाटकार	इन्फैन्ट्री
75352	प्रवीण नन्दकुमार काले	इन्फैन्ट्री
75353	हरीश बूरा	इन्फैन्ट्री
75354	कूना अनिल कुमार	आर्टी
75355	सुरेन्द्र सिंह	आर्टी
75356	एम आर सुहास	इन्फैन्ट्री
75357	हर्ष गुप्ता	इन्फैन्ट्री
75358	राजकुमार	इंट
75359	कर्मवीर बाजरोलिया	इन्फैन्ट्री
75360	गोविन्द सिंह कार्की	इन्फैन्ट्री
75361	अश्विनी कुमार	सिग्नल्स
75362	विमल रॉय	इन्फैन्ट्री
75363	रितापा	इन्फैन्ट्री
75364	सतविन्दर सिंह	आर्टी
75365	सुची ब्रत मंडल	इन्फैन्ट्री
75366	मोरे राहुल तानाजी	ई एम ई
75367	अमित प्रताप सिंह	आर्टी
75368	सुदेश जे	आर्टी
75369	सुमित शर्मा	इन्फैन्ट्री
75370	आलोक भास्कर	इन्फैन्ट्री
75371	अम्बुज	ए सी
75372	आशीष कुमार सिंह	ए एस सी
75374	आर कौशल	आर्टी
75376	रंजितसिंह नितिन सोनवाणे	इन्फैन्ट्री
75377	जी सतीश कुमार	आर्टी
75379	पुनीत चौधरी	ई एम ई
75380	विरेंद्र सिंह	ए ए डी
75381	अभिजीत सिंह तोमर	इंट
75382	नीरज कुमार गौड़	ए सी
75383	अभय सिंह	इन्फैन्ट्री
75384	परवेज आलम	इन्फैन्ट्री
75385	सुधीर कुमार	ए एस सी
75386	जरमाल सिंह	ई एम ई
75387	ललित सिंह सौन	आर्टी
75388	प्रेरक जोशी	इन्फैन्ट्री
75389	प्रशांत चौधरी	ए ओ सी
75391	सिमरप्रीत सिंह	ए सी
75392	मनीष पोनिया	इंजिनियर्स
75393	निखोत्सो सेकु अगामी	इन्फैन्ट्री
75394	दीपांशु नागर	ए ओ सी
75396	अमित कुमार	इन्फैन्ट्री
75397	मृणाल केवल डोंगरे	सिग्नल्स
75398	सुमित दत्तात्रय मार्तण्डे	इन्फैन्ट्री
75399	अंकित कुमार पुनिया	आर्टी

75400	जोगिन्दर सिंह	आर्टी
75401	संतोष कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
75402	राकेश कुमार सिंह	ए एस सी
75404	प्रमोद कुमार	ए ओ सी
75405	बालाजी एस	आर्टी
75406	विनोद कुमार पाणी	मैक इन्फैन्ट्री
75407	ईशान पाल	इंजिनियर्स
75408	रजनीश शर्मा	ए सी
75409	मनीष	आर्टी
75410	विक्रान्त पौल	इन्फैन्ट्री
75411	मुनित सिंह	इन्फैन्ट्री
75412	गगनदीप सिंह	ए एस सी
75413	सुधीर कुमार	ए ओ सी
75414	हितेश कुमार यादव	इन्फैन्ट्री
75415	सरताज पाल सिंह	इंजिनियर्स
75416	धीरज जोधा	इन्फैन्ट्री
75417	सुमीत कुमार तिवारी	आर्टी
75418	अक्षांश शर्मा	आर्टी
75419	रवीन्द्र कुमार वर्मा	ए एस सी
75420	जयशंकर	इन्फैन्ट्री
75421	मुदापका दिनेश कुमार	इन्फैन्ट्री
75422	कर्मेन्द्र कृष्ण	आर्टी
75423	नितेश कुमार	इन्फैन्ट्री
75424	योगेश	इन्फैन्ट्री
75425	चन्द्र शेखर वशिष्ठ	आर्टी
75426	मनीष कुमार	इन्फैन्ट्री
75427	सूरज प्रताप सिंह	ए एस सी
75428	अंशुल खड़याल	आर्टी
75429	अंकुर कुमार बसोत्रा	एसी
75430	सैकत भट्टाचार्य	इन्फैन्ट्री
75431	मुदित गुलाटी	ए सी
75432	दीपक कुमार मिश्रा	ए ए डी
75433	उदित राणा	इन्फैन्ट्री
75434	नितिश शर्मा	ए ओ सी
75435	समीर कुमार	आर्टी
75436	भट्ट कश्यप हेमंत	सिग्नल्स
75437	प्रबल सिंह	ए एस सी
75438	प्रतीक सक्सेना	इन्फैन्ट्री
75439	सुभाष बिशनोई	आर्टी
75440	जॉर्ज थलियथ	इन्फैन्ट्री
75441	हितेश मलिक	ई एम ई
75442	शैलेन्द्र श्योराण	आर्टी
75443	अभिषेक राजवंशी	आर्टी
75444	हिमांशु तिवारी	आर्टी
75445	ऐलेक्स ललमुआपुया	इंट

75446	अंकुश कुमार	आर्टी
75447	राजीब छेत्री	आर्टी
75448	बीरंजय कुमार	इन्फैन्ट्री
75449	प्रशांत सोनी	ए ए डी
75450	श्यामल खरे	ए ए डी
75451	रोहित मंदोत्रा	ए सी
75452	अंकित सिंह	आर्टी
75453	कुणाल महाजन	आर्टी
75454	आदित्य कुमार	इन्फैन्ट्री
75455	सुब्रत कुमार मिश्रा	आर्टी
75457	राम चन्द्र थापा	इन्फैन्ट्री
75458	राकेश कुमार	ए सी
75459	पंकज भट्टाचार्य	इन्फैन्ट्री
75460	संग्राम सिंह	ए ए डी
75461	साकेत कुमार	इन्फैन्ट्री
75462	पवनप्रीत सिंह	इन्फैन्ट्री
75463	स्वागत दास	इन्फैन्ट्री
75464	निलंजन बट्टाच्यार्य	इन्फैन्ट्री
75465	अभिषेक कुमार	ए ओ सी
75466	विजय राय	आर्टी
75467	आशुतोष पाराशर	ए ओ सी
75468	आशीश कुमार	इंजिनियर्स
75469	एम हेमजीत मोईरांग	आर्टी
75470	हैप्पी चरक	इन्फैन्ट्री
75471	धीरज	इन्फैन्ट्री
75472	विशाल कुमार चौधरी	इन्फैन्ट्री
75473	कुमार संजीत	आर्टी
75474	गौरव बल्हारा	इंजिनियर्स
75476	एस गोपीनाथ यादव	ए ए डी
75477	कुँवर प्रशान्त सिंह	इन्फैन्ट्री
75478	अमोल प्रीत सिंह बाला	एविएशन
75479	मोहित मलिक	आर्टी
75480	न्यामनेइ फोम	इन्फैन्ट्री
75481	प्रदीप कुमार भुयॉ	आर्टी
75482	अर्जुन राठी	ई एम ई
75483	जोरावर सिंह	आर्टी
75484	अंकुर तिवारी	ए सी
75485	पुनीत शरन	आर्टी
75486	गौरव कुमार	आर्टी
75487	मोहित खत्री	आर्टी
75488	पप्पू कुमार यादव	आर्टी
75489	वैभव वर्मा	ए ओ सी
75490	परमिन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
75491	राहुल बालामोहन	इन्फैन्ट्री
75492	अभिषेक सिंह नाबियाल	इन्फैन्ट्री

75493	विक्रान्त वर्मा	ए ओ सी
75494	सत्यम कुमार दुबे	आर्टी
75495	कौशिक जी	सिग्नल्स
75496	रुद्राशीश मजूमदार	ए ओ सी
75497	मोहम्मद अशरफ मीर	ए ओ सी
75498	एम अरुणकुमार	इन्फैन्ट्री
75499	राधेश्याम	इन्फैन्ट्री
75500	सुनील कुमार	मैक इन्फैन्ट्री
75501	गौरव शरद जाधव	आर्टी
75502	अश्विनी कुमार सिंह	आर्टी
75503	संदीप सिंह भमरा	इन्फैन्ट्री
75504	अर्पित राणा	ए एस सी
75505	राणा वासिम अहमद शराफत अली	आर्टी
75506	अमन शर्मा	ए सी
75507	विवेक सांगवान	इंट
75508	गौरव रावत	इन्फैन्ट्री
75509	सुनील कुमार	इन्फैन्ट्री
75510	तारीफ सिंह	ई एम ई
75511	प्रशांत श्रीवास्तव	आर्टी
75512	अजय प्रताप सिंह	इन्फैन्ट्री
75513	क्रिपेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
75514	विवेक गंगल	आर्टी
75515	अंकित श्योकन्द	ए एस सी
75516	नवीन जाजुन्दा	इन्फैन्ट्री
75517	प्रमोद कुमार कसाना	ए एस सी
75518	दुर्गेश्वर प्रताप सिंह	इन्फैन्ट्री
75519	पवित्रो कुमार मजूमदार	आर्टी
75520	रिंकु पाण्डा	आर्टी
75521	दीपक कुमार	आर्टी
75522	अभिषेक आर चंदावरकर	ए ए डी
75523	अखिल	मैक इन्फैन्ट्री
75524	विकास श्योराण	इन्फैन्ट्री
75525	यशवंत सिंह	आर्टी
75526	प्रियंकर दत्ता	आर्टी
75527	अंशुल चौधरी	ए सी
75529	सुधीर कुमार तोमर	ए एस सी
75530	राहुल मल्होत्रा	ए सी
75532	संग्राम सिंह चिब	ई एम ई
75534	अंकुर सिंह राणा	इंजिनियर्स
75535	दिव्यशंख शर्मा	मैक इन्फैन्ट्री
75536	दाभाडे तुषार मुणालकांत	इन्फैन्ट्री
75537	मृदुल कांत चौधरी	आर्टी
75538	जॉन केन्नेडी निगोथोजम	इन्फैन्ट्री

75539	राजन कुमार	इंट
75540	मोहित डिमरी	सिग्नल्स
75541	सुनील कुमार	आर्टी
75542	सुनीत मिश्रा	आर्टी
75543	विजय कुमार	आर्टी
75544	मयंक कुमार सिंह	ए सी
75545	प्रेम सिंह	आर्टी
75546	बिरेन्द्र कुमार	आर्टी
75547	सौरव शर्मा	इन्फैन्ट्री
75548	त्रिशय सिंह शेखावत	इन्फैन्ट्री
75549	रेडकर प्रणव मंगेश	इन्फैन्ट्री
75551	नवनीत ठाकुर	इन्फैन्ट्री
75552	लाईशराम मनोरंजन सिंह	ए ओ सी
75553	कुमार अभिषेक	एविएशन
75555	गुरदिल सिंह जॉहल	आर्टी
75556	विनेन्द्र यादव	इन्फैन्ट्री
75557	स्वदेश कुमार दुबे	ए सी
75558	रितेश सॉंगवान	इन्फैन्ट्री
75559	देवेश बणिक	इन्फैन्ट्री
75560	हर्षदीप सिंह	इन्फैन्ट्री
75561	आशुतोष तिवारी	ए एस सी
75562	ब्रजेश बेनीवाल	आर्टी
75563	अमित गुंजन	इन्फैन्ट्री
75564	उपल सेनगुप्ता	इन्फैन्ट्री
75565	रामनाथ जे आर	इन्फैन्ट्री
75566	अभिषेक दिवान	आर्टी
75567	धर्मवीर सिंह	ई एम ई
75568	राजपाल सिंह शेखावत	इन्फैन्ट्री
75569	तनमय विष्वास	सिग्नल्स
75570	अभिषेक विश्वनाथन	इन्फैन्ट्री
75571	सुशील जाखड़	इन्फैन्ट्री
75572	अमर सिंह	इन्फैन्ट्री
75573	चन्द्राकर कुमार चौहान	इन्फैन्ट्री
75574	पारोलकर दर्शन प्रकाश	आर्टी
75575	अनूप कृष्णन	आर्टी
75576	समीर कान्त द्विवेदी	ए ए डी
75577	अरुण कुमार आर	आर्टी
75578	हिमांशु चौधरी	आर्टी
75580	गौरव आनन्द बौड़ाई	इंजिनियर्स
75581	सुनित कुमार सिंह	ए ओ सी
75582	करण थामस जोसफ	इन्फैन्ट्री
75583	रंजीत कुमार	ए एस सी
75584	विनय कुमार	इन्फैन्ट्री
75585	अखिलनाथ सी एच	आर्टी
75587	अमित चौधरी	ए एस सी

75588	ललित कुमार प्रधान	इन्फैन्ट्री
75589	तुषार सिन्हा	इन्फैन्ट्री
75590	अमित शर्मा	मैक इन्फैन्ट्री
75591	भवानी सिंह	इन्फैन्ट्री
75592	आब्रे वैभव सुनिलकुमार	इन्फैन्ट्री
75593	राणे सिद्धेश अरुण	इन्फैन्ट्री
75594	अभ्युदय सिंह चौहान	इन्फैन्ट्री
75595	अबीर कुमार घोष	ए ओ सी
75596	पीयुष गोवर	इन्फैन्ट्री
75597	जी थोमस	सिग्नल्स
75598	कपिल तोमर	ए एस सी
75599	प्रदीप जॉगड़ा	इंजिनियर्स
75600	वैभव	इन्फैन्ट्री
75601	अभिषेक सिंह	इंजिनियर्स
75602	ओएसिस कुमार	इन्फैन्ट्री
75603	पीयुष शर्मा	सिग्नल्स
75604	अंकित सुखीजा	ई एम ई
75605	विकास त्यागी	इन्फैन्ट्री
75606	गोविन्द प्रजापति	ए सी
75607	विकास शर्मा	एविएशन
75608	के अरविन्द	इंजिनियर्स
75609	सिद्धार्थ मिश्रा	ई एम ई
75610	तुषार मनहास	इंजिनियर्स
75611	राहुल सोलंकी	सिग्नल्स
75613	सुमित यादव	सिग्नल्स
75614	शरतराज एम वी	ई एम ई
75615	अविनाश पिलाजी काले	ई एम ई
75616	संदीप कुमार पाण्डेय	ई एम ई
75617	श्रीनाथ वी ई	आर्टी
75618	अमित सिंह	आर्टी
75619	विसपूते स्वप्निल दिलीप	सिग्नल्स
75620	राजेश थापा	ई एम ई
75621	चित्तरंजन साहू	इन्फैन्ट्री
75622	अपूर्व नारायण	इंजिनियर्स
75623	दीपक मलिक	ई एम ई
75624	शेखर दीप	इन्फैन्ट्री
75625	विपरांशु पाण्डेय	इंजिनियर्स
75626	तनुज गौरोला	इंजिनियर्स
75627	प्रदीप बघेल	इन्फैन्ट्री
75628	कुलदीप सिंह यादव	इन्फैन्ट्री
75629	विवेक पाठक	इंजिनियर्स
75630	अजय प्रताप सिंह राठौड़	आर्टी
75631	धर्मवीर कुमार चौरसिया	इंजिनियर्स
75633	हरित शर्मा	ई एम ई

75634	दीपक कुमार मिश्रा	ई एम ई
75635	पोरस डोगरा	आर्टी
75636	तरुण वर्धन	सिग्नल्स
75637	प्रवीण कुमार	इन्फैन्ट्री
75638	कुनाल गुसाई	इंजिनियर्स
75639	अतुल जसवाल	ई एम ई
75641	आदित्य जसरोटिया	इंजिनियर्स
75642	मनीष कुमार यादव	इंजिनियर्स
75643	अंकित गुप्ता	ई एम ई
75644	योगेश बिष्ट	इन्फैन्ट्री
75645	सौरव देशवाल	इन्फैन्ट्री
75646	वरुण कुलश्रेष्ठ	सिग्नल्स
75647	आनंद कुमार सिंह	ए ओ सी
75649	पार्थ चौहान	आर्टी
75650	अभिषेक अहलावल	ई एम ई
75651	उल्लास प्रसाद सोती	इन्फैन्ट्री
75652	अभिषेक कुलकर्णी	ए ए डी
75653	वरुण के सी	ई एम ई
75654	मानवेन्द्र सिंह	इंजिनियर्स
75655	शाश्वत खरे	ए सी
75656	रामेश्वर सिंह	मैक इन्फैन्ट्री
75657	विपुल पाठक	सिग्नल्स
75658	ज्योति रंजन शतपथी	सिग्नल्स
75740	कटदारे आदित्य राजन	ए ई सी
75818	राकेश सिंह	ए ई सी

—11 जून 2017—

76937	विपिन भट्ट	इंजिनियर्स
76938	रोबिन श्रोत्रिया	एएससी
76939	खुशविंदर सिंह	आर्टी
76940	मुच्ची वेंकट दिव्या सागर	आर्टी
76941	संदीप कुमार सिंह	एएससी
76942	श्रेयस जी एस	एसी
76943	सिद्धार्थ मिश्रा	एएडी
76944	अजित कुमार	सिग्नल्स
76945	हरमनदीप सिंह चीमा	एसी
76946	विश्वामित्र अंगारिका	एएससी
76947	सोराईशम ओकेन्द्रो	आर्टी
76948	हर्षा	सिग्नल्स
76949	मंगल बराल	ईएमई
76950	बलजीत भारद्वाज	आर्टी
76951	अभिषेक वाल	सिग्नल्स
76952	अभिनव शर्मा	ईएमई
76953	कुलकर्णी श्रीपाद दिलीपराव	इन्फैन्ट्री
76954	निखिल राज वी	आर्टी

76955	प्रशांत सुरेगांवकर	इंजिनियर्स
76956	जीवन बी उथेय्या	इंजिनियर्स
76957	अमरददीप दांगी	इन्फैन्ट्री
76958	विशाल जी	इंजिनियर्स
76959	अर्शदीप सिंह सोढी	सिगनल्स
76960	प्रदीप सिंह	इंजिनियर्स
76961	अंकुर वर्मा	एएससी
76963	अमित पाटिल	इंजिनियर्स
76964	अरविन्द कुमार पाठक	सिगनल्स
76965	पार्थ मोहन्ती	ईएमई
76966	आनंद एम एस	इन्फैन्ट्री
76967	गौरव गुप्ता	ईएमई
76968	अमित कुमार यादव	ईएमई
76969	आर इसाक वलान फेरनानडो	इंजिनियर्स
76970	प्रतीक शर्मा	सिगनल्स
76971	आशुतोष कुमार सिंह	एएडी
76973	चेतन कुमार	इन्फैन्ट्री
76974	सुनील कुमार	इन्फैन्ट्री
76975	चवण स्वप्निल सुभाष	ईएमई
76976	अभिषेक कुमार	ईएमई
76977	आशुतोष कुमार	आर्टी
76979	गौरव त्रिपाठी	इन्फैन्ट्री
76980	सौरभ पाण्डेय	मैक इन्फैन्ट्री
76981	सी सारथ चन्द्रन	ईएमई
76983	आशीष ठाकुर	इंजिनियर्स
76984	अनंत वि नलवडे	ईएमई
76985	मुकेश प्रतिहार	सिगनल्स
76986	तेकुविट्टील अखिल अशोक	ईएमई
76987	साईराम के	आर्टी
76988	रोबिन देव आनन्द	इन्फैन्ट्री
76989	मयंक सिंह कौरव	ईएमई
76990	दलजीत सिंह पठानिया	इन्फैन्ट्री
76991	सचिन दीक्षित	सिगनल्स
76992	विषाल भूरिया	इंजिनियर्स
76993	दवीन कुमार	ईएमई
76994	राहुल शर्मा	इंजिनियर्स
76995	जोश मैथ्यू	इन्फैन्ट्री
76996	मनेन्दर यादव	इंजिनियर्स
76997	हेमचंद्रा बी	इन्फैन्ट्री
76998	वाघमारे ऋषिकेश जयवंत	मैक इन्फैन्ट्री
76999	जोना रेन्गमा	ईएमई
77000	तवनीत सिंह लाम्बा	इंजिनियर्स
77001	सनी कुमार	सिगनल्स
77002	अखिल	ईएमई

77003	आर शरथ	ईएमई
77004	अनुज सिंह	इंजिनियर्स
77005	हेमन्त कुमार शर्मा	इंजिनियर्स
77006	युवराज सिंह	सिगनल्स
77007	अखिल कुमार शर्मा	इंजिनियर्स
77008	राजीव कौशल	सिगनल्स
77010	परमवीर सिंह राठौड़	आर्टी
77012	दीपक शर्मा	ईएमई
77013	पटेल हितेन मनीलाल	इंजिनियर्स
77014	अमित कुमार पाण्डेय	ईएमई
77015	अनंत सौरभ बहल	इंजिनियर्स
77016	भारत सती	ईएमई
77017	अजित चौधरी	इंजिनियर्स
77018	राहुल शर्मा	सिगनल्स
77019	विक्रान्त	इन्फैन्ट्री
77020	नितेश कुमार	आर्टी
77021	कोल्हापूर अभिषेक अरुण	ईएमई
77022	अरुण कुमार	एससी
77023	विश्व दीप	ईएमई
77024	देवव्रत काम्बोज	एसी
77025	अभिमन्यु मूण्ड	सिगनल्स
77026	अंकित कुमार	इंजिनियर्स
77027	मीतइंदर सिंह	एएडी
77028	शशांक यादव	इंजिनियर्स
77029	प्रवीण कुमार भास्करल	इन्फैन्ट्री
77030	चिराग चैटर्जी	एओसी
77031	अंकित शेखर सिंह	आर्टी
77032	समृद्ध सूद	सिगनल्स
77033	सिमरनजीत अमरीक सिंह	सिगनल्स
77034	पंकज तिवारी	ईएमई
77035	उरुज हैदर जाफरी	इंजिनियर्स
77036	गोखल गौड़	ई एम ई
77037	दिग्विजय विष्णुदास कणसे	इंजिनियर्स
77038	अनुराग शुक्ला	एओसी
77039	एच जी अभियंत	ईएमई
77040	जितेश चड्ढा	इंजिनियर्स
77042	दीपक चण्डालिया	सिगनल्स
77043	विवेक सिंह	इंजिनियर्स
77044	पंकज सैकीया	इंजिनियर्स
77045	हर्ष वर्धन भट्ट	ईएमई
77046	ओम प्रकाश प्रसाद	इन्फैन्ट्री
77047	सौरभ गुप्ता	इंजिनियर्स
77049	मन्जुनाथ गुंजिकर	इंजिनियर्स
77050	अभिषेक रेप्सवाल	इंजिनियर्स

77051	योगराज आर	इन्फैन्ट्री
77052	अश्विन चंद्रशेखर	इंजिनियर्स
77053	अंकित दहिया	इन्फैन्ट्री
77054	दिलीप उष्णी	ईएमई
77055	यतीश कुमार गौतम	इंजिनियर्स
77056	परमजीत सिंह	आर्टी
77057	राहुल शर्मा	ईएमई
77058	गिरीश शर्मा	ईएमई
77060	अभिषेक जेम्स	आर्टी
77061	भरत सिंह शेखावत	सिगनल्स
77062	विजीष राज ए	इंजिनियर्स
77063	आदर्श टी	इन्फैन्ट्री
77064	सुहास एस पाटिल	इन्ट
77065	प्रवीणकुमार मुचंडी	एसी
77066	मनप्रीत सिंह	सिगनल्स
77067	अरविन्द बी नायर	ईएमई
77068	नक्षत्र सिंह गोराया	इन्फैन्ट्री
77069	अमन दत्त	ईएमई
77070	विभिन्त ए	ईएमई
77072	प्रशान्त राय	सिगनल्स
77073	प्रदीप सिंह तंवर	एओसी
77074	अजीत सिंह मौर्य	आर्टी
77075	तनुल पाठक	आर्टी
77076	गेरी ऐ जोसफ	इंजिनियर्स
77077	अनिरुद्ध गोहैन बरुआह	सिगनल्स

—12 जून 2017—

नियमित सेना
स्पेशल कमीशन
कप्तान से मेजर

एस सी सं.	नाम	आर्म
00639	सुरेन्द्र सिंह नेगी	ए ओ सी
00640	जसबीर सिंह	ए सी
00642	लनुमर	इंफैन्ट्री
00643	बिजेन्दर सिंह	मैक इंफैन्ट्री
00644	मुकेश कुमार बसनेट	इंफैन्ट्री
00645	पृथ्वी सिंह	आर्टी
00646	कुलदीप शर्मा	इंफैन्ट्री
00647	आलोक कुमार सिंह	ए सी
00648	नवनीश गुरुंग	इंफैन्ट्री
00649	शंकर कुमार	इंफैन्ट्री
00650	अमोल कुमार	आर्टी
00651	रमनजीत सिंह काला	ए एस सी
एस एल-05398 (एस सी-00652)	अभिजीत डॉन	एस एल (ए पी टी सी)

—11 जून 2017

नियमित सेना
स्पेशल लिस्ट कमीशन
कप्तान से मेजर

एस एल नं.	नाम	आर्म
05146	कसम खान	एस एल ए पी टी सी
05147	सतीष कुमार	ए ई ई बी/आर एंड ए एस डब्ल्यू
05148	मनोज एम वी	ए ई ई ई एम (आई ई एम)
05149	जी प्रदीप कुमार	टी ई ओ (ए ए डी)
05150	परिखित मोहंती	आर ओ
05154	आर सेल्वाराज	टी ओ एस टी
05155	देलादिया अश्विन कुमार केशव जी	आर ओ
05156	सत नारायण	ए ई ई बी/आर एंड ए एस डब्ल्यू
05158	मोइरंगथेम बंकिम चंद्र सिंह	टी ई ओ (ए ए डी)
05159	मुकेश कुमार	टी ई ओ (ए ए डी)
05160	करुणाकर राव गोनागा	आर ओ
05161	दीपा कुमार बी आर	इडीएन ऑफिसर
05162	संग्राम सिंह राठौर	आर ओ
05163	सुंकारा वी रमन रेड्डी	इडीएन ऑफिसर
05164	सिबू टीवी	आर ओ
05165	भरत सिंह गुर्जर	आर ओ
05166	सतीष चंद्र भट्ट	आर ओ
05167	रविन्द्र सिंह यादव	आर ओ
05168	अनिल कुमार आर	आर ओ
05170	तिलक बैश्या	आर ओ
05171	सुधाकरन के पी	आर ओ
05172	वासुदेव भंडारी	आर ओ
05173	सुधीर कुमार	आर ओ
05174	सुनील कुमार	आर ओ
05175	प्रदीप कुमार एम यू	आर ओ
05177	प्रजीश एम वी	आर ओ
05178	एन नित्यानंदम	आर ओ
05179	आर वेलुमुरुगन	आर ओ
05180	कृष्ण कुमार यादव	आर ओ
05181	थोराट आनंद जालिन्दर	आर ओ
05182	सल्लावी मिश्रा	आर ओ
05183	प्रदीपन कक्कुट्टाथिल	आर ओ
05184	दीपक कुमार	इडीएन ऑफिसर
05185	राकेश कुमार शर्मा	ई एम ए ई
05186	शाजी पी के	आर ओ
05187	राकेश कुमार	आर ओ
05188	परवीन कुमार	ई एम ए ई
05189	इद्राणी बासु मजुमदार	आर ओ
05190	नरेश चौहान	आर ओ
05191	हरिओम सिंह गुरुंग	आर ओ
05192	नेपाल सिंह	ई एम ए ई
05193	बलवान सिंह	आर ओ

05194	एस पवन कुमार	आर ओ
05195	विजय कुमार चौधरी	आर ओ
05196	राजेश नेगी	आर ओ
05197	संतोष कुमार	आर ओ
05199	बामन दलपत कुमार	आर ओ
05200	ब्रिजेश कुमार पांडे	आर ओ
05201	राकेश कुमार पांडे	आर ओ
05202	विनोद कुमार	आर ओ
05203	किरण शर्मा	आर ओ
05204	सचिन कुमार छेत्री	आर ओ
05206	अनुराग गुप्ता	आर ओ

—29 अगस्त 17

नियमित सेना
अल्पकालीन सेवा कमीशन
कप्तान से मेजर

एस एस सं.	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
43918	विकास सिंह	आर्टी	20 अक्टूबर 2016
44082	भूपेन्द्र सिंह पटयाल	इंफैंट्री	18 अप्रैल 2017
44094	अंकिता मुखर्जी	ए ओ सी	18 अप्रैल 2017
44102	करतार सिंह खोखर	ए एस सी	18 अप्रैल 2017
44181	अभिषेक कृष्णा विलाश फारसी	ए सी	18 अप्रैल 2017
44184	अनिल राना	इंफैंट्री	18 अप्रैल 2017
44219	सागर वत्स	ए एस सी	18 अप्रैल 2017
45455	डी मेलो वेलेन्टिना जॉन	ई एम ई	20 अप्रैल 2017
45478	दीपांकर हयांकी	इंजीनियर्स	20 अप्रैल 2017
45530	सुगंध सिरोही	ई एम ई	20 अप्रैल 2017

एम पी शर्मा
उप निदेशक
एम एस 8सी

थल सेना शाखा
सं. 13, दिनांक 9 जनवरी 2018—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—
स्थायी थल सेना
(सेना चिकित्सा कोर)
स्थायी सूबेदार मेजर (नर्सिंग सहायक)

पद	नाम	सेना संख्या	प्रभाव डाले ज्येष्ठता
सूबेदार	राजेश कुमार मोर्या	जेसी-698548डब्ल्यू	30 जुलाई 2016!
सूबेदार	धर्मेस कुमार	जेसी-698549वाई	30 जुलाई 2016!
सूबेदार	दिवान सिंह	जेसी-698572एम	03 अगस्त 2016!
सूबेदार	दलबीर सिंह	जेसी-698574एक्स	02 अगस्त 2016!
सूबेदार	लाल बहादुर प्रसाद	जेसी-698608ए	06 अगस्त 2016!
सूबेदार	महेन्द्र सिंह	जेसी-698610एक्स	03 अगस्त 2016!
सूबेदार	प्रमोद कुमार	जेसी-698711एल	02 अगस्त 2016!
सूबेदार	महेन्द्र सिंह	जेसी-699160एक्स	03 अगस्त 2016!
सूबेदार	सुभाष	जेसी-699180एल	02 अगस्त 2016!
सूबेदार	प्रफुल कुमार मिश्रा	जेसी-698717एम	03 अगस्त 2016!

सूबेदार	सुचित कुमार	जेसी-698789डब्ल्यू	03 अगस्त 2016!
सूबेदार	सुशील कुमार भट्ट	जेसी-698720एम	04 अगस्त 2016!
सूबेदार	राजेश सिंह	जेसी-699166वाई	01 अगस्त 2016!
सूबेदार	जय भगवान	जेसी-698762वाई	02 अगस्त 2016!
सूबेदार	किशन सिंह गुर्जर	जेसी-698779एम	04 अगस्त 2016!
!(सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 29 जुलाई 2016 से दी जायेगी।)			
सूबेदार	आम्बरे विकास शान्तराम	जेसी-698802पी	03 अगस्त 2016
(सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी।)			
सूबेदार	बिजय कुमार सिंह	जेसी-698780एफ	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	अलेक्जेंडर टी	जेसी-698806एल	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	सस्ते अशोक सोपना	जेसी-698781के	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	शेर सिंह बिस्ट	जेसी-698818ए	01 अक्तूबर 2016
सूबेदार	रणवीर सिंह	जेसी-698819एच	01 अक्तूबर 2016
सूबेदार	बिरेन्द्र सिंह देव	जेसी-698821ए	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	राज नंदन यादव	जेसी-698822एच	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	संजय कुमार सिंह	जेसी-698944एम	07 दिसम्बर 2016!!
सूबेदार	रतन सिंह	जेसी-698823एल	07 दिसम्बर 2016!!
!!(सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 29 नवम्बर 2016 से दी जायेगी।)			
सूबेदार	सत्यवीर सिंह	जेसी-699080ए	01 जनवरी 2017
सूबेदार	उमेश सिंह ठाकुर	जेसी-698947ए	01 फरवरी 2017
सूबेदार	राजाराम साक्या	जेसी-698949एल	01 फरवरी 2017
सूबेदार	अजय कुमार	जेसी-698951एच	01 मार्च 2017
सूबेदार	सुधाशु कुमार प्रधान	जेसी-699066एन	01 मार्च 2017
सूबेदार	भुपेन्द्र सिंह	जेसी-698953एन	01 मार्च 2017
सूबेदार	उमाशंकर सिंह	जेसी-698967एन	01 मार्च 2017
सूबेदार	भगत सिंह	जेसी-694255एन	01 मार्च 2016
सूबेदार	इलाम सिंह	जेसी-694270एच	01 मार्च 2016
सूबेदार	रनबीर सिंह	जेसी-694612एल	01 मार्च 2016
सूबेदार	औकार	जेसी-694613एन	01 मई 2016
सूबेदार	कैलाश चन्द्र सिंह	जेसी-694631डब्ल्यू	01 मई 2016
सूबेदार	मनोज कुमार	जेसी-694946ए	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	सुव्वदा शिवनारायण	जेसी-694927पी	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	कुमार एच एस	जेसी-694947एच	01 अक्तूबर 2016
सूबेदार	देवेन्द्र सिंह	जेसी-694988एम	01 अक्तूबर 2016
सूबेदार	श्याम सिंह	जेसी-694941एफ	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	सुभाष चन्द्र	जेसी-694899एन	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	कमलेश कुमार पाण्डे	जेसी-694307वाई	07 दिसम्बर 2016!
सूबेदार	एन महेन्द्रन	जेसी-694897एच	07 दिसम्बर 2016!
!(सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 02 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी।)			
सूबेदार	दिनेश चन्द्र	जेसी-694616एफ	01 जनवरी 2017

स्थायी सूबेदार (नर्सिंग टेकनीशियन)

पद	नाम	सेना संख्या	प्रभाव डाले ज्येष्ठता
नायब सूबेदार	जितेन्द्र कुमार	जेसी-697627वाई	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	संजीव कुमार	जेसी-697628एफ	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	हरी शंकर द्विवेदी	जेसी-697629के	01 मार्च 2016

नायब सूबेदार	जगदीश चन्द्र कस्वा	जेसी-697630वाई	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	रंजीत सिंह	जेसी-697631एफ	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	अमृत लाल बनारसी	जेसी-697632के	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	जेसी-697780पी	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	जामन लाल बरकेसिया	जेसी-697633एम	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	जेसी-697634पी	11 अप्रैल 2016!
नायब सूबेदार	वीर पाल सिंह	जेसी-697635एक्स	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	मोहम्मद वसी खान	जेसी-697636ए	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	ईलियास	जेसी-697726एफ	04 अप्रैल 2016!
नायब सूबेदार	भुवन चन्द्र उप्रेती	जेसी-697637एच	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	जगदीश सिंह खाती	जेसी-697638एल	01 अप्रैल 2016
! (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अमालेन्दु सतपथी	जेसी-697639एन	02 मई 2016!!
नायब सूबेदार	ई रेनुगंथन	जेसी-697640एच	01 मई 2016
नायब सूबेदार	काले राजु सदा शिव	जेसी-697641एल	01 मई 2016
!! (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	प्रेम चन्द	जेसी-697642एन	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	तुशार कान्ती मन्ना	जेसी-697643डब्ल्यू	13 अगस्त 2016!!!
नायब सूबेदार	संतोष कुमार सिंह	जेसी-697644वाई	17 अगस्त 2016!!!
नायब सूबेदार	राजेश कुमार	जेसी-697645एफ	11 अगस्त 2016!!!
नायब सूबेदार	संतोष कुमार मोरे	जेसी-697646के	27 अक्टूबर 2016!!!
नायब सूबेदार	चन्दन मन्ना	जेसी-697647एम	01 अगस्त 2016
!!! (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	हंश राज	जेसी-697727के	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	चवन जनारदन तुकाराम	जेसी-697648पी	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	प्रताप सिंह	जेसी-697649एक्स	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	उपेन्द्र कुमार	जेसी-697650एम	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	लक्ष्मण सिंह	जेसी-697651पी	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	जी एम काती मनी	जेसी-697652एक्स	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	एस जॉन केनेडी	जेसी-697653ए	22 सितम्बर 2016 /
/ (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	विक्रम सिंह	जेसी-697654एच	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	धीरेन्द्र सिंह	जेसी-697655एल	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	शम्भु झा	जेसी-697656एन	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	मंगल कुमार नायक	जेसी-697657डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	नीरज कुमार शुक्ला	जेसी-697728एम	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	कुलदीप कुमार	जेसी-697659एफ	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	चेतराम महला	जेसी-697660डब्ल्यू	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	अनिलकुमार	जेसी-697661वाई	26 नवम्बर 2016 / /
नायब सूबेदार	रामबहादुर	जेसी-697729पी	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	शेटके शरद नारायण	जेसी-697662एफ	21 नवम्बर 2016 / /
नायब सूबेदार	सुनील सिंह	जेसी-698073एक्स	15 नवम्बर 2016 / /
नायब सूबेदार	जितेन्द्र सिंह	जेसी-698166एम	01 नवम्बर 2016
/ / (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	शाजी केपी	जेसी-698074ए	05 दिसम्बर 2016 / / /

नायब सूबेदार	पवन कुमार सिंह	जेसी-698075एच	06 दिसम्बर 2016 / / /
नायब सूबेदार	गौरव विवेक दत्ता राम	जेसी-698076एल	05 दिसम्बर 2016 / / /
नायब सूबेदार	अरुण कुमार उपाध्याय	जेसी-698077एन	14 दिसम्बर 2016 / / /
नायब सूबेदार	अजय कुमार सिंह	जेसी-698078डब्ल्यू	02 दिसम्बर 2016 / / /
नायब सूबेदार	जय मंगल पाण्डे	जेसी-698079वाई	19 दिसम्बर 2016 / / /
नायब सूबेदार	राजेश कुमार	जेसी-698080एन	03 दिसम्बर 2016 / / /
नायब सूबेदार	सुरेश शिराहट्टी	जेसी-698081डब्ल्यू	13 दिसम्बर 2016 / / /
नायब सूबेदार	नितिन रावत	जेसी-698082वाई	19 दिसम्बर 2016 / / /
नायब सूबेदार	सुब्रत कुमार प्रधान	जेसी-698167पी	10 दिसम्बर 2016 / / /
नायब सूबेदार	भगवान कठात	जेसी-698084के	19 दिसम्बर 2016 / / /
नायब सूबेदार	ए जयाराम	जेसी-698085एम	03 दिसम्बर 2016 / / /
नायब सूबेदार	मनीकम एमजी	जेसी-698086पी	23 दिसम्बर 2016 / / /
नायब सूबेदार	अखिलेश कुमार यादव	जेसी-698087एक्स	03 दिसम्बर 2016 / / /
/ / / (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 09 नवम्बर 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	रसल बाबासाहेब गोविन्द	जेसी-698088ए	03 दिसम्बर 2016+
नायब सूबेदार	कर्ण सिंह	जेसी-698089एच	03 दिसम्बर 2016+
+(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	मनोज कुमार यादव	जेसी-698090एक्स	04 जनवरी 2017
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	रबिन्द्र कुमार तिवारी	जेसी-698091ए	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार	हसे सुभाष सोमनाथ	जेसी-698092एच	10 फरवरी 2017++
++(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	राकेश नन्दी	जेसी-698168एक्स	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	अभय कुमार सिंह	जेसी-698093एल	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	अरविन्द कुमार यादव	जेसी-698094एन	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	अमित कुमार	जेसी-698095डब्ल्यू	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	उपेन्द्र कुमार राणा	जेसी-698170पी	01 मार्च 2017

स्थायी नायब सूबेदार (नर्सिंग सहायक)

पद	नाम	सेना संख्या	स्थिति	सेना संख्या	प्रभाव डाले ज्येष्ठता
हवलदार	प्रमोद कुमार सिंह	13982912वाई	अब	जेसी-702466एन	27 फरवरी 2017
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।)					
हवलदार	साबली बालू नाथ	13984256एफ	अब	जेसी-701708 वाई	26 मई 2017'
हवलदार	चवन राम चन्द्रा शिवाजी	13983358एल	अब	जेसी-701789के	30 जून 2016'
हवलदार	बेरगली राम चन्द्रा श्री शैला	13984207वाई	अब	जेसी-701887के	27 अक्टूबर 2016'
'(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	दुर्गा ओझा	13984218एल	अब	जेसी-701340एफ	27 दिसम्बर 2016''
हवलदार	राकेश कुमार सिंह	13984211एफ	अब	जेसी-701610एल	09 मई 2016''
हवलदार	सुधीर कुमार	13984220एच	अब	जेसी-701343पी	20 दिसम्बर 2016''
''(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	वैवहारे सुनील रामराव	13984263एक्स	अब	जेसी-701912एक्स	01 नवम्बर 2016'''
हवलदार	जोयदेब हलदर	13984291के	अब	जेसी-701488ए	01 मार्च 2016
हवलदार	शेख मीरा	13984331ए	अब	जेसी-701476एल	02 मार्च 2016'''
हवलदार	श्रीनिवास काम्बला	13984330एक्स	अब	जेसी-7011477एन	01 मार्च 2016
हवलदार	दगाडे शशी कान्त निवरुत्ती	13984340एफ	अब	जेसी-701478डब्ल्यू	01 मार्च 2016
हवलदार	प्रभु दयाल	13984326पी	अब	जेसी-701709एफ	30 मई 2016'''

हवलदार	रोशन लाल दस्ता	13984355के	अब	जेसी-701479वाई	01 मार्च 2016
हवलदार	कुलबीर सिंह	13984359ए	अब	जेसी-701480एन	01 मार्च 2016
हवलदार	पारस नाथ यादव	13984365एन	अब	जेसी-701481डब्ल्यू	01 मार्च 2016
हवलदार	कुम्भा राम खोखर	13984372के	अब	जेसी-701482वाई	01 मार्च 2016
हवलदार	अनिल कुमार सिंह	13984364एल	अब	जेसी-701483एफ	03 मार्च 2016'''
हवलदार	सत्यराजन के	13984393ए	अब	जेसी-701484के	01 मार्च 2016
हवलदार	नागर सिंह	13984387एम	अब	जेसी-701485एम	01 मार्च 2016
हवलदार	राम बहादुर प्रसाद सिंह	13984408एक्स	अब	जेसी-701486पी	01 मार्च 2016
हवलदार	सुभाष टोपो	13984456एक्स	अब	जेसी-701710डब्ल्यू	01 जून 2016'''
हवलदार	सुबोध कुमार ठाकूर	13984405के	अब	जेसी-701487एक्स	15 मार्च 2016'''
हवलदार	अशोक कुमार झों	13984411एक्स	अब	जेसी-701489एच	01 मार्च 2016
हवलदार	पंकज कुमार झों	13984409ए	अब	जेसी-701490एक्स	01 मार्च 2016
'''(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	रतन कुमार रंजन	13984420वाई	अब	जेसी-701491ए	01 अप्रैल 2016
हवलदार	मनोज कुमार चौधरी	13984399एफ	अब	जेसी-701492एच	01 अप्रैल 2016
हवलदार	रिपून्जय कुमार	13984418एफ	अब	जेसी-701493एल	01 अप्रैल 2016
हवलदार	राजीव कुमार	13984417वाई	अब	जेसी-701494एन	01 अप्रैल 2016
हवलदार	बैजू केजे	13984443ए	अब	जेसी-701495डब्ल्यू	01 अप्रैल 2016
हवलदार	मनीश कुमार	13984416डब्ल्यू	अब	जेसी-701496वाई	01 अप्रैल 2016
हवलदार	सतीश कुमार इपी	13984439एक्स	अब	जेसी-701497एफ	01 अप्रैल 2016
हवलदार	मलेशवरी सिंह	13984406एम	अब	जेसी-701498के	01 अप्रैल 2016
हवलदार	सुनील कुमार ठाकूर	13984400एल	अब	जेसी-701499एम	01 अप्रैल 2016
हवलदार	अंजनी कुमार राय	13984471एम	अब	जेसी-701500डब्ल्यू	06 अप्रैल 2016!
हवलदार	प्रमोद प्रकाश मिश्रा	13984486पी	अब	जेसी-701501वाई	01 अप्रैल 2016
हवलदार	गिरीश कुमार झों	13984489एच	अब	जेसी-701502एफ	01 अप्रैल 2016
हवलदार	रामसारे यादव	13984546वाई	अब	जेसी-701503के	01 अप्रैल 2016
हवलदार	शक्कीर मोहमद	13984581एफ	अब	जेसी-701504एम	01 अप्रैल 2016
हवलदार	के सतीश कुमार	13984570पी	अब	जेसी-701505पी	01 अप्रैल 2016
हवलदार	बी अनील कुमार	13984578एफ	अब	जेसी-701506एक्स	04 अप्रैल 2016!
हवलदार	संतोष जौर्ज	13984563वाई	अब	जेसी-701507ए	01 अप्रैल 2016
हवलदार	अजीथ राधाकृष्णन	13984576डब्ल्यू	अब	जेसी-701508एच	01 अप्रैल 2016
हवलदार	राजेश वी	13984587एच	अब	जेसी-701509एल	01 अप्रैल 2016
हवलदार	बुद्धादेब मण्डल	13984602एम	अब	जेसी-701510ए	01 अप्रैल 2016
हवलदार	एल चन्द्र कान्त सिंघा	13984618एक्स	अब	जेसी-701511एच	01 अप्रैल 2016
हवलदार	मदन कुमार	13984637एच	अब	जेसी-701512एल	01 अप्रैल 2016
हवलदार	मनोज कुमार	13984638एल	अब	जेसी-701513एन	01 अप्रैल 2016
हवलदार	नगेन्द्र कुमार सिंह	13984649एक्स	अब	जेसी-701514डब्ल्यू	01 अप्रैल 2016
हवलदार	नीरज कुमार राय	13984650एम	अब	जेसी-701611एन	12 मई 2016!
!(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	पेशकर सिंह यादव	13984702एक्स	अब	जेसी-701711वाई	08 जून 2016!!
हवलदार	रामेश्वर कुमार सिंह	13984709एफ	अब	जेसी-701712एफ	21 जून 2016!!
हवलदार	बिधा शंकर सिंह यादव	13984712एफ	अब	जेसी-701713के	07 जून 2016!!
हवलदार	उमाकान्त कुमार	13984748ए	अब	जेसी-711714एम	08 जून 2016!!
हवलदार	मैकुलाल	13984745एम	अब	जेसी-701715पी	07 जून 2016!!
हवलदार	रोमानकी अपन्ना	13984839के	अब	जेसी-701716एक्स	16 जून 2016!!

हवलदार	कुलदीप	13984867डब्ल्यू	अब	जेसी-701717ए	08 जून 2016!!
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	राजेन्द्र सिंह	13984941एम	अब	जेसी-701718एच	01 जुलाई 2016
हवलदार	आनंद सिंह धौनी	13984940के	अब	जेसी-701719एल	01 जुलाई 2016
हवलदार	सुरेश कुमार	13984969एम	अब	जेसी-701720ए	01 जुलाई 2016
हवलदार	रविन्द्र सिंह	13985012ए	अब	जेसी-701721एच	01 जुलाई 2016
हवलदार	रुद्रा सिंह	13985077एन	अब	जेसी-701722एल	01 जुलाई 2016
हवलदार	अरविन्द कुमार	13985141ए	अब	जेसी-701723एन	19 जुलाई 2016!!!
हवलदार	गोविन्द सिंह सामन्त	13985150एफ	अब	जेसी-701889पी	29 अक्टूबर 2016!!!
हवलदार	देसाई चन्द्रकान्त पाण्डूरंग	13983155एफ	अब	जेसी-701724डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
!!! (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	एम डी सरबार आलम	13984217एच	अब	जेसी-701785एन	02 अगस्त 2016 /
हवलदार	प्रवेश सिंह	13984223डब्ल्यू	अब	जेसी-701786डब्ल्यू	01 अगस्त 2016
हवलदार	लाल कुमार पी एस	13984447डब्ल्यू	अब	जेसी-701787वाई	01 अगस्त 2016
हवलदार	राजेन्द्र सिंह चौहान	13984632के	अब	जेसी-701788एफ	06 अगस्त 2016 /
/ (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	संजीत कुमार पाटील	13984805डब्ल्यू	अब	जेसी-701883एन	01 सितम्बर 2016
हवलदार	अरुण कुमार मिश्रा	13985144एन	अब	जेसी-701884डब्ल्यू	01 सितम्बर 2016
हवलदार	बरुण कुमार झों	13985163वाई	अब	जेसी-701885वाई	01 सितम्बर 2016
हवलदार	भागीरथ सिंह	13985224एल	अब	जेसी-701886एफ	01 सितम्बर 2016
हवलदार	बासूदेव रुइदास	13984703ए	अब	जेसी-701888एम	13 अक्टूबर 2016 / /
हवलदार	लेख राम गौतम	13985250एम	अब	जेसी-701890के	05 नवम्बर 2016 / /
हवलदार	संतोष सिंह	13985257डब्ल्यू	अब	जेसी-701891एम	22 अक्टूबर 2016 / /
हवलदार	रेंगासामी एन	13985358के	अब	जेसी-701892पी	21 अक्टूबर 2016 / /
हवलदार	राकेश कुमार	13985361के	अब	जेसी-701893एक्स	13 अक्टूबर 2016 / /
हवलदार	भूप सिंह	13985256एन	अब	जेसी-701894ए	18 अक्टूबर 2016 / /
/ / (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	पाटील मनु भाई मधा भाई	13985320ए	अब	जेसी-701913ए	01 नवम्बर 2016
हवलदार	ममान खान	13985329पी	अब	जेसी-701914एच	01 नवम्बर 2016
हवलदार	सयजू एके	13985380पी	अब	जेसी-701915एल	01 नवम्बर 2016
हवलदार	पलवे संपत तूका राम	13985414एक्स	अब	जेसी-701916एन	01 नवम्बर 2016
हवलदार	गुलशन कुमार	13985441एफ	अब	जेसी-701917डब्ल्यू	01 नवम्बर 2016
हवलदार	जय प्रकाश सिन्हा	13985444पी	अब	जेसी-701918वाई	01 नवम्बर 2016
हवलदार	धर्मेन्द्र कुमार सिंह	13985454वाई	अब	जेसी-701960एक्स	25 नवम्बर 2016 / / /
हवलदार	हरीश कुमार	13985515एल	अब	जेसी-701961ए	25 नवम्बर 2016 / / /
/ / / (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	जहीर रैहान	13985692एल	अब	जेसी-701967एफ	05 दिसम्बर 2016;
हवलदार	राजेश कुमार सिंह	13985731वाई	अब	जेसी-702073एक्स	05 दिसम्बर 2016;
हवलदार	राकेश दत्त शर्मा	13985723ए	अब	जेसी-702074ए	05 दिसम्बर 2016;
हवलदार	विजय बहादूर यादव	13985732एफ	अब	जेसी-702075एच	06 दिसम्बर 2016;
हवलदार	जय कुमार पानीकेर	13985713डब्ल्यू	अब	जेसी-702076एल	03 दिसम्बर 2016;
हवलदार	मैथू एम वर्गीश	13985712एन	अब	जेसी-702077एन	03 दिसम्बर 2016;
हवलदार	शिव शंकर सिंह	13985733के	अब	जेसी-702078डब्ल्यू	03 दिसम्बर 2016;
हवलदार	कुलदीप सिंह	13985776वाई	अब	जेसी-702079वाई	26 दिसम्बर 2016;

हवलदार	मोहन लाल	13985775डब्ल्यू	अब	जेसी-702080एन	03 दिसम्बर 2016;
हवलदार	धदाम्बे दतात्रे दामोदर	13985800के	अब	जेसी-702081डब्ल्यू	03 दिसम्बर 2016;
हवलदार	सोलांकर बालासो दन्यान देव	13985837एल	अब	जेसी-702082वाई	05 दिसम्बर 2016;
हवलदार	मथुरा प्रसाद	13985780एफ	अब	जेसी-702083एफ	02 दिसम्बर 2016;
हवलदार	वरपे हनुमन्त लक्ष्मण	13985836एच	अब	जेसी-702084के	01 दिसम्बर 2016;
हवलदार	बलराज सिंह	13985859के	अब	जेसी-702085एम	03 दिसम्बर 2016;
हवलदार	एस कमलुधीन	13986006वाई	अब	जेसी-702086पी	17 दिसम्बर 2016;
;(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 09 नवम्बर 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	अशोक सिंह	13985879एक्स	अब	जेसी-702116एफ	17 दिसम्बर 2016
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	नारायण सिंह	13985915एक्स	अब	जेसी-702217पी	15 जनवरी 2017;;
हवलदार	शिव कुमार	13985905एन	अब	जेसी-702218एक्स	25 जनवरी 2017;;
हवलदार	जगदीश प्रसाद सिंह	13985984एन	अब	जेसी-702219ए	06 जनवरी 2017;;
(;नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017से दी जायेगी।)					
हवलदार	सुदर्शन कुमार	13985950ए	अब	जेसी-702230वाई	01 फरवरी 2017
हवलदार	तारा दत्त	13985119एफ	अब	जेसी-702231एफ	01 फरवरी 2017
हवलदार	एन राजेन्द्रन	13986513एम	अब	जेसी-702233एम	27 फरवरी 2017;;;
हवलदार	रामा नन्द साहनी	13986662ए	अब	जेसी-702283एक्स	09 फरवरी 2017;;;
;;;(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जायेगी।)					
हवलदार	बैजू पृथीयन चेरी	13986651एन	अब	जेसी-702285एच	01 मार्च 2017
हवलदार	राधा वैकटरमन	13986713एच	अब	जेसी-702286एल	01 मार्च 2017
हवलदार	सुधीरेन्द्र सिंह	13986740एम	अब	जेसी-702287एन	04 मार्च 2017+
हवलदार	बिशेन्द्र सिंह	13986752एफ	अब	जेसी-702288डब्ल्यू	01 मार्च 2017
हवलदार	जितेन्द्र सिंह	13986743ए	अब	जेसी-702289वाई	01 मार्च 2017
हवलदार	धर्मेन्द्र कुमार सिंह	13986746एन	अब	जेसी-702291डब्ल्यू	06 मार्च 2017+
हवलदार	गणेशन आर	13986907एल	अब	जेसी-702292वाई	01 मार्च 2017
हवलदार	अनिल कुमार एन	13986797एफ	अब	जेसी-702498डब्ल्यू	20 मार्च 2017+
+(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी।)					

स्थायी नायब सूबेदार (नर्सिंग टेक्नीकल)

पद	नाम	सेना संख्या	स्थिति	सेना संख्या	प्रभाव डाले ज्येष्ठता
नायक	करुणाकर रमनैअह	15411179वाई	अब	जेसी-702293एफ	13 फरवरी 2017
नायक	जगताप पुण्डलिक तुकाराम	15411542के	अब	जेसी-702294के	22 फरवरी 2017
नायक	जी सथीश कुमार	15413022एक्स	अब	जेसी-702295एम	13 फरवरी 2017
नायक	राजीव कुमार सिंह	15413786डब्ल्यू	अब	जेसी-702296पी	04 फरवरी 2017
नायक	समोद कुमार	15414568के	अब	जेसी-702297एक्स	03 फरवरी 2017
नायक	ब्रह्म पाल सिंह	15414590पी	अब	जेसी-702298ए	13 फरवरी 2017
नायक	प्रदिप कुमार सिंह	15414930एम	अब	जेसी-702299एच	04 फरवरी 2017
नायक	रंजन कुमार	15416472ए	अब	जेसी-702300एम	03 फरवरी 2017
नायक	लाइमोइन लन्गबा	15416911ए	अब	जेसी-702301पी	04 फरवरी 2017
नायक	इरशाद खान	15417933एल	अब	जेसी-702302एक्स	04 मार्च 2017
नायक	धर्मेन्द्रा सिंह	15417972के	अब	जेसी-702303ए	04 फरवरी 2017
नायक	शोइबम सुन्दर सिंह	15418059एच	अब	जेसी-702304एच	14 फरवरी 2017
नायक	दिलीप कुमार के वी	15418261डब्ल्यू	अब	जेसी-702305एल	13 फरवरी 2017
नायक	अरविन्द प्रसाद सिंह	15418760एल	अब	जेसी-702306एन	04 फरवरी 2017
नायक	विलुरी जगदीशा बाबू	15418801के	अब	जेसी-702307डब्ल्यू	04 फरवरी 2017
नायक	राम सेवक सिंह	15420225के	अब	जेसी-702308वाई	21 फरवरी 2017

नायक	फैयाज अहमद राशी	15420785डब्ल्यू	अब	जेसी-702309एफ	21 फरवरी 2017
नायक	परेश राना	15420875एक्स	अब	जेसी-702310डब्ल्यू	14 फरवरी 2017
नायक	अजय सिंह चिब	15420924पी	अब	जेसी-702311वाई	13 फरवरी 2017
नायक	गोलक बिहारी मोहन्ती	15420983एफ	अब	जेसी-702312एफ	14 फरवरी 2017
नायक	दुष्यन्त कुमार	15417927एक्स	अब	जेसी-702313के	03 फरवरी 2017
नायक	बसन्त कुमार	15421253एन	अब	जेसी-702314एम	13 फरवरी 2017
नायक	नीहार रंजन नायक	15423531के	अब	जेसी-702315पी	04 फरवरी 2017
नायक	मल्लिकार्जुन राव ए	15423704डब्ल्यू	अब	जेसी-702316एक्स	13 फरवरी 2017
नायक	सागर मुखर्जी	15424059वाई	अब	जेसी-702317ए	10 फरवरी 2017
नायक	तेज प्रताप सिंह	15424249एल	अब	जेसी-702318एच	21 फरवरी 2017
नायक	आनंद प्रताप सिंह	15424387एम	अब	जेसी-702319एल	04 फरवरी 2017
नायक	सुनील कुमार	15424431एल	अब	जेसी-702320ए	14 फरवरी 2017
नायक	उपेन्द्र सिंह चौहान	15424637एच	अब	जेसी-702321एच	16 फरवरी 2017
नायक	रविन्द्र कुमार	15424666एक्स	अब	जेसी-702322एल	25 मार्च 2017
नायक	रवी कुमार	15424706एन	अब	जेसी-702323एन	09 मार्च 2017
नायक	भुनकेश्वर यादव	15424760एफ	अब	जेसी-702324डब्ल्यू	11 फरवरी 2017
नायक	नितिन कुमार अवस्थी	15424768एन	अब	जेसी-702325वाई	13 फरवरी 2017
नायक	मनीश कुमार	15424770एल	अब	जेसी-702326एफ	11 फरवरी 2017
नायक	प्रकाश चन्द्र झा	15425080एन	अब	जेसी-702327के	03 फरवरी 2017
नायक	रविन्द्र कुमार सिंह	15425110ए	अब	जेसी-702328एम	04 फरवरी 2017
नायक	कुलदीप कुमार	15425215के	अब	जेसी-702329पी	03 फरवरी 2017
नायक	रवी शेखर	15425245एफ	अब	जेसी-702330के	04 फरवरी 2017
नायक	शोवान चक्रवर्ती	15425318एच	अब	जेसी-702331एम	14 मार्च 2017
नायक	बश्वाराज मथापती	15425337एन	अब	जेसी-702332पी	14 फरवरी 2017
नायक	राकेश कुमार	15425342वाई	अब	जेसी-702333एक्स	13 फरवरी 2017
नायक	रितेश कुमार	15425354एन	अब	जेसी-702334ए	06 फरवरी 2017
नायक	पवार परशराम पोपट	15425527ए	अब	जेसी-702335एच	14 मार्च 2017
नायक	प्रेम चन्द ढाका	15425647वाई	अब	जेसी-702336एल	04 फरवरी 2017
नायक	मुकेश कुमार	15425672एक्स	अब	जेसी-702337एन	06 फरवरी 2017
नायक	दिनेश कुमार खेदर	15425674एच	अब	जेसी-702338डब्ल्यू	16 फरवरी 2017
नायक	वीरेन्द्र सिंह	15425681वाई	अब	जेसी-702339वाई	04 मार्च 2017
नायक	बलबीर सिंह	15425682एफ	अब	जेसी-702340एन	14 मार्च 2017
नायक	ओम प्रकाश फगना	15425960के	अब	जेसी-702341डब्ल्यू	02 मार्च 2017
नायक	रोहित कुमार गौडा	15426662ए	अब	जेसी-702342वाई	27 फरवरी 2017

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 29 नवम्बर 2016 से दी जायेगी।)

ए के तिवारी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 13th January 2018

ARMY BRANCH

No. 9, dated 5th January 2018—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Captain (ON PROBATION)

(Antedate of Commission)

DS-12643K Capt Mohit Rana - 28 Dec 2016

with seniority for pay and promotion from 28-06-2013 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS Degree from MS Ramaiah Dental College & Hospital, Bengaluru, Karnataka, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka and 06 months for antedate for holding following hospital appointments:-

Dental Surgeon in Sharda Memorial Hospital, Inder Enclave-1d, Mubarakpur Road, Delhi from 01 Jan 2010 to 20 Aug 2010.

Junior Resident (Dental) in Guru Gobind Singh Govt Hospital, Raghubir Nagar, New Delhi from 26 Aug 2010 to 25 Feb 2011.

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 19 Aug 2017, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12641Y Capt Akhil Mittal - 28-12-2016

with seniority for pay and promotion from 28-12-2013 (36 months antedate for acquiring MDS Degree from Dr R Ahmed Dental College & Hospital, Kolkata, West Bengal University of Health Sciences, Kolkata, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 19 Aug 2017, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12633A Capt Sagar Dahiya - 28-12-2016

with seniority for pay and promotion from 28-12-2013 (36 months antedate for acquiring MDS Degree from Army College of Dental Sciences, Dr NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 19 Aug 2017, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12624Y Capt Karan Padha - 28-12-2016

with seniority for pay and promotion from 28-12-2013 (36 months antedate for acquiring MDS Degree from Sri Guru Ram Das Institute of Dental Sciences & Research, Amritsar, Baba Farid University of Health Sciences, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 19 Aug 2017, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

KG KUMAR DEVAYYA

Brig

DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 10, dated 5th January 2018—The President is pleased to make the following promotion : —

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

S Kapoor (MR-04725X)	-	01-09-17, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-01-17.
-------------------------	---	--

CK Jakhmola (MR-05877L)	-	10-07-17, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-06-17.
----------------------------	---	--

Wg Cdr (& equivalent) to be Gp Capt (& equivalent)

Piush Renjhen (MR-06849L)(23472-F)	-	08-03-17, with notional seniority without effect on pay and pension from 15-02-17.
---------------------------------------	---	--

SURG CDR TO SURG CAPT (TIME SCALE)

MR-06339F (75639-K)	SURG CDR	ASHISH JYOTI	19 JUN 2017
---------------------	----------	--------------	-------------

WG CDR TO GP CAPT (TIME SCALE)

MR-06594W (AF-22492-G)	WG CDR	M MUKHERJEE	14 JUL 2017
------------------------	--------	-------------	-------------

B SRIDHAR
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 11, dated 8th January 2018—The President is to make the following promotion (PC) under AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY ARMY DENTAL CORPS (PERMANENT COMMISSION)

LT COL (& EQUIV) TO BE COL (& EQUIV)

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
DR-10458X	Lt Col	RS Vats	18-02-2010 (with notional seniority 18-02-2010 without effect on pay & allowances)
DR-10459A	Lt Col	ID Roy	18-02-2010 (with notional seniority 18-02-2010 without effect on pay & allowances)
DR-10466W	Lt Col	PK Singh	15-03-2010 (with notional seniority 04-03-2010 without effect on pay & allowances)
DR-10461X	Lt Col	Mukul Kumar	06-03-2010 (with notional seniority 06-03-2010 without effect on pay & allowances)
DR-10476A	Lt Col	M Viswambaran	29-04-2010 (with notional seniority 29-04-2010 without effect on pay & allowances)
DR-10470 Y	Surg Cdr	SS Chopra	28-05-2010 (with notional seniority 28-05-2010 without effect on pay & allowances)
DR-10452W	Lt Col	RK Yadav	26-11-2010 (with notional seniority 26-11-2010 without effect on pay & allowances)

KG KUMAR DEVAYYA
Brig
Dy DGDS (P)

No. 12, dated 8th January 2018—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION MAJ TO BE LT COL

PERS NO.	NAME	ARMS	DATE OF PROMOTION
IC-60876	Kapil Malik	Arty	09 Jun 2017

IC-62325	Prajapati Dinesh Prabhuji	AC	08 Jun 2015
IC-63116	Suresh N	Engrs	24 Oct 2016
IC-66371	Ashish Rao	Engrs	24 Oct 2016

IC NO.	NAME	ARMS	DATE OF PROMOTION
63423	AMIT KUMAR DAS	AAD	13 Dec 2016
63525	ABHISHEK SHARMA	ARTY	13 Dec 2016
63678	AMAN BHARDWAJ	ENGRS	13 Dec 2016
63762	YUVARAJ NATHU GAIKWAAD	AC	12 Jun 2017
63773	GONTE RAVINDRA DNYANESHWAR	INF	12 Jun 2017
63781	KULVIR SINGH GILL	INF	12 Jun 2017
63782	KAMAL CHAUHAN	ASC	12 Jun 2017
63783	RAGHVENDRA SINGH	INF	12 Jun 2017
63784	AKSHAY DOGRA	INF	12 Jun 2017
63788	DIVY PAL SINGH RATHOR	MECH	12 Jun 2017
63790	HIMKAR VAID	ARTY	12 Jun 2017
63793	NAVEEN KUMAR KALALIA	INF	12 Jun 2017
63800	NIKHIL SHARMA	INF	12 Jun 2017
63802	SHAKTI SINGH	AC	12 Jun 2017
63805	YAZAD ILAVIA	INF	12 Jun 2017
63807	OKENDRA SINGH	INF	12 Jun 2017
63811	DARA SINGH CHAHAL	INF	12 Jun 2017
63831	DIWAN SINGH	ENGRS	12 Jun 2017
63851	ARJUN SHIVAJI THORAT	M/INF	12 Jun 2017
63854	RAJNEESH BHARDWAJ	ARTY	12 Jun 2017
63858	ANAND S PATIL	INF	12 Jun 2017
63883	VISHAL RANA	AVN	12 Jun 2017
63885	YUVRAJ KRISHNARAO PATIL	INF	12 Jun 2017
63896	KAVISH BHATLI	AVN	12 Jun 2017
63897	SALGAR RAGHVENDRA PRITHVIRAJ	G/MECH	12 Jun 2017
63905	RAJA SUMEET SIHAG	AOC	12 Jun 2017
63909	ANKUSH GUPTA	ARTY	12 Jun 2017
63911	MANISH PANDEY	INF	12 Jun 2017
63915	ROSEN KUMAR PRADHAN	INF	12 Jun 2017
63918	NITIN KHANNA	ARTY	12 Jun 2017
63924	RAHUL	MECH	12 Jun 2017
63931	ABHISHEK YADAV	INF	12 Jun 2017
63934	VIJAY RAMACHANDRA JADHAV	INF	12 Jun 2017
63940	DIVESH SINGH SPEHIA	ARTY	12 Jun 2017
63941	SANJEEV KUMAR SINGH	INF	12 Jun 2017
63943	DEEPAK KUMAR	INF	12 Jun 2017
63950	MJ SAJEEV KUMAR	INF	12 Jun 2017
63965	SIDHARTH YADAV	INF	12 Jun 2017
63967	SANJAY KUMAR BAJIYA	INF	12 Jun 2017
63975	KULDEEP SINGH	AAD	12 Jun 2017
63978	ANAND SUBBA MORDECAI	ENGRS	12 Jun 2017
63986	AMIT PAROLEKAR	INF	12 Jun 2017

63991	SIDDHARTH PATHAK	ARTY	12 Jun 2017
63995	AJITAB CHAND THAKURI	INF	12 Jun 2017
64001	RAJKUMAR SAMANANDA SINGH	INF	12 Jun 2017
64002	ABHISHEK KUMAR	INF	12 Jun 2017
64005	S DUBEY	EME	12 Jun 2017
64011	R VIJAI ANAND	MECH	12 Jun 2017
64026	VINOD KUMAR MV	AOC	12 Jun 2017
64042	SUSHRI CHANDAN RAY	INF	12 Jun 2017
64048	PUNEET DILAWARI	ARTY	12 Jun 2017
64052	HARSHVARDHAN	AAD	12 Jun 2017
64061	AJAY SANGWAN	ARTY	12 Jun 2017
64064	SAURAV SINGH	AVN	12 Jun 2017
64071	BHUPENDER SOLANKI	AOC	12 Jun 2017
64083	VISHEK WALIA	ARTY	12 Jun 2017
64088	PAURUSH PRADHAN	INF	12 Jun 2017
64089	SHOUMIK SENGUPTA	INF	12 Jun 2017
64097	RAVI KUMAR TYAGI	ARTY	12 Jun 2017
64099	MANOJ KUMAR YADAV	ARTY	12 Jun 2017
64101	MUKESH DOGRA	INF	12 Jun 2017
64106	M DAVID ACHOW SINGH	INF	12 Jun 2017
64122	SINGH BHARAT	AAD	12 Jun 2017
64140	DILIP S	INF	12 Jun 2017
64143	SURYA BHAN SINGH	INF	12 Jun 2017
64170	PRASHANT SINGH KASHIWALE	INF	12 Jun 2017
64173	ASHISH KUMAR PATHAK	G/MECH	12 Jun 2017
64184	NIMISH TRIVEDI	AAD	12 Jun 2017
64199	R RAMESH	AVN	12 Jun 2017
64205	ABHIJEET DUTTA	INF	12 Jun 2017
64213	RATAN DEEP SINGH GUJRAL	AOC	12 Jun 2017
64217	MAYANK SUNDRIYAL	ENGRS	12 Jun 2017
64231	SAMRENDRA KISHORE	ENGRS	12 Jun 2017
64239	GIMMY THOMAS	AVN	12 Jun 2017
64257	GURPREET SINGH KALRA	EME	12 Jun 2017
64303	BALU BHARATH	AEC	12 Jun 2017
68377	JAS KARAN SINGH BAJWA	SIGS	13 Jun 2017
68385	KULDEEP SINGH	SIGS	13 Jun 2017
68397	MANOJ KUMAR	ENGRS	13 Jun 2017
68400	PRABHJOT SINGH	SIGS	13 Jun 2017
68402	KRUPANAND V SAHASRABUDHE	SIGS	13 Jun 2017
68405	BHARAT BHUSHAN	EME	13 Jun 2017
68407	N LONGSHIBEMO ODYUO	ENGRS	13 Jun 2017
68413	CHETAN MAHESHWARI	SIGS	13 Jun 2017
68434	ABHIMANYU SHARMA	ENGRS	13 Jun 2017
68437	RAJESH PRASAD SINGH	SIGS	13 Jun 2017
68442	ANANYA MOHILEY	SIGS	13 Jun 2017
68443	R POTHIRAJAN	SIGS	13 Jun 2017
68444	K V VINAYAKA	ENGRS	13 Jun 2017

63763	P LOKCHANDAR	INF	12 Jun 2017
63764	ARVIND KUMAR KHICHAIR	ASC	12 Jun 2017
63765	SHAILENDER SINGH	AAD	12 Jun 2017
63766	VARUN SINGH JAMWAL	AC	12 Jun 2017
63767	TEJINDER SINGH	ENGRS	12 Jun 2017
63769	JASWANT SINGH	INF	12 Jun 2017
63770	RAJA WANGDI SHERPA	INF	12 Jun 2017
63771	MANEESH MISHRA	INF	12 Jun 2017
63772	JASBIR SINGH	AOC	12 Jun 2017
63774	PRABHJOT SINGH SEKHON	SIGS	12 Jun 2017
63775	SURENDER SINGH DHILLON	INF	12 Jun 2017
63778	KAMALDEEP PANWAR	INF	12 Jun 2017
63779	PREET MOHAN SINGH	AVN	12 Jun 2017
63780	PUNYABACHI MOHANTY	INF	12 Jun 2017
63785	GAURAV SONI	ARTY	12 Jun 2017
63786	PALLAV SUD	ENGRS	12 Jun 2017
63787	NITIN SHIVAJIRAO BHIKANE	AVN	12 Jun 2017
63789	DUSHYANT HANAMANT SONAWANE	INF	12 Jun 2017
63791	SAURABH CHANDE	ARTY	12 Jun 2017
63792	AMRINDER SINGH BAADWAL	AAD	12 Jun 2017
63795	GHAG SUJAY SHIVAJI	INF	12 Jun 2017
63796	GAURAV SHARMA	INF	12 Jun 2017
63797	AMIT SHARMA	ARTY	12 Jun 2017
63799	HIMANSHU BALI	AOC	12 Jun 2017
63801	RAJENDRA KUMAR	INF	12 Jun 2017
63803	PIYUSH MISHRA	ARTY	12 Jun 2017
63804	SANJEET SINGH KAADYAN	G/MECH	12 Jun 2017
63806	IRFAN AHMED KHAN	INF	12 Jun 2017
63809	TUSHAR DHASMANA	INF	12 Jun 2017
63810	MOHINDER PAL SINGH	INF	12 Jun 2017
63812	AKSHAY A CHATURVEDI	AC	12 Jun 2017
63813	KANDUKURI VISWANADHAM	ARTY	12 Jun 2017
63815	ARJUN SINGH BOHRA	INF	12 Jun 2017
63816	SACHIN ABHIMANYU PATIL	ARTY	12 Jun 2017
63817	C SRINIVAS	INF	12 Jun 2017
63818	VIGHNESH BELLIAPPA	INF	12 Jun 2017
63819	UDAY CHHATRAPATI BORUDE	INF	12 Jun 2017
63822	SHAIKENDRA PRATAP SINGH	ENGRS	12 Jun 2017
63824	MANISH RAMESH LANJEKAR	INF	12 Jun 2017
63825	ANSHUL SHARMA	ARTY	12 Jun 2017
63826	SURAJIT SAMAL	AAD	12 Jun 2017
63827	MANISH DAGAR	ASC	12 Jun 2017
63828	NITIN KHANNA	SIGS	12 Jun 2017
63829	ARVIND VANNUR	ARTY	12 Jun 2017
63830	JASBINDER BEER SINGH JUDGE	AC	12 Jun 2017
63832	SUDEESH JOSEPH VARUGHESE	ARTY	12 Jun 2017
63833	ABHINAV JHA	SIGS	12 Jun 2017

63834	ABHISHEK GOSWAMI	INF	12 Jun 2017
63835	HEMANT KUMAR	INF	12 Jun 2017
63836	MANOJ KUMAR YADAV	AAD	12 Jun 2017
63837	AMIT KUMAR DAS	ARTY	12 Jun 2017
63838	ANUJ TYAGI	INF	12 Jun 2017
63840	UMESH GIRI	SIGS	12 Jun 2017
63842	SANDEEP SRIVASTAVA	ARTY	12 Jun 2017
63844	HEM CHANDRA SINGH	INF	12 Jun 2017
63846	SAUMITRA S MISHRA	INF	12 Jun 2017
63847	P SRINIVAS	INF	12 Jun 2017
63848	SUKHJIT SINGH SANDHU	SIGS	12 Jun 2017
63849	JAMWANT SINGH	INF	12 Jun 2017
63850	KARAN SAGAR	INF	12 Jun 2017
63852	SHIV KUMAR SINGH	INF	12 Jun 2017
63859	GAURAV GARG	INF	12 Jun 2017
63861	VARUN VIJAY GIDH	INF	12 Jun 2017
63862	VIVEK PATHAK	ARTY	12 Jun 2017
63864	RAM SINGH	ASC	12 Jun 2017
63865	CHINGANGBAM PRANAB SINGH	INF	12 Jun 2017
63868	SAURABH MAMGAIN	M/INF	12 Jun 2017
63869	THOMAS JACOB	INF	12 Jun 2017
63870	NITIN MUDGAL	INF	12 Jun 2017
63872	MAYANK SHARMA	INF	12 Jun 2017
63873	MANOJ KUMAR NAIR	ARTY	12 Jun 2017
63874	JATIN GULERI	INF	12 Jun 2017
63875	ABHISHEK CHAUDHARY	INF	12 Jun 2017
63876	NAWAZESH N PATEL	INF	12 Jun 2017
63878	AMIT POONIA	INF	12 Jun 2017
63879	ARUN KUMAR THAKUR	INF	12 Jun 2017
63880	SURINDER	AAD	12 Jun 2017
63887	HANUMAN RAM	INF	12 Jun 2017
63888	PETER SEIKHOLAL TOUTHANG	INF	12 Jun 2017
63891	ASHUTOSH SHUKLA	AAD	12 Jun 2017
63892	TUSHAR PRATAPRAO JADHAV	ARTY	12 Jun 2017
63894	JITENDRA BHIRORIA	AVN	12 Jun 2017
63895	BEJANKI MITHUN KUMAR	INF	12 Jun 2017
63898	JAGPREET SINGH MIDHA	INF	12 Jun 2017
63899	GURVINDER SINGH BAJWA	ENGRS	12 Jun 2017
63900	VIVEK KUMAR	INF	12 Jun 2017
63901	AMIT SHARMA	ASC	12 Jun 2017
63902	TARUN GAURAV	ARTY	12 Jun 2017
63903	VARUN SINGH MALHAN	ASC	12 Jun 2017
63906	MONARK SADH	AOC	12 Jun 2017
63908	VINAY KUMAR	INF	12 Jun 2017
63910	MANISH DAHIYA	INF	12 Jun 2017
63912	S JAGADEESAN	AOC	12 Jun 2017
63913	RAJKUMAR YADAV	ARTY	12 Jun 2017

63914	KUMAR VAIBHAV	ARTY	12 Jun 2017
63916	KANWAR ROHIT	INF	12 Jun 2017
63917	AMIT KUMAR	ARTY	12 Jun 2017
63919	GAURAV ANAND	AVN	12 Jun 2017
63920	DIPANKAR DEY	INF	12 Jun 2017
63921	SUMIT SHARMA	ASC	12 Jun 2017
63923	RAJENDER PRASAD	INF	12 Jun 2017
63925	BIMAL MISHRA	INF	12 Jun 2017
63926	ASHUTOSH KUMAR	INF	12 Jun 2017
63927	AS PANNU	EME	12 Jun 2017
63928	KUNAL RAMESH LONARI	AC	12 Jun 2017
63932	AMITENDRA KUMAR SINGH	ARTY	12 Jun 2017
63933	K SATHISH PRABHU	AAD	12 Jun 2017
63935	NARESH KUMAR CHAUHAN	INT	12 Jun 2017
63937	HEMANT KANDPAL	INF	12 Jun 2017
63938	GANESH SHANKAR VIDYARTHI	INT	12 Jun 2017
63942	MANISH SINGH CHAUHAN	INF	12 Jun 2017
63944	VIKAS LOCHAB	AVN	12 Jun 2017
63946	ANSHUL GAUR	INF	12 Jun 2017
63947	SHAMSHER SINGH DEVAL	AC	12 Jun 2017
63949	RAJESH KUMAR SHRIVASTAVA	INF	12 Jun 2017
63951	SUDEEP SINGH SANGWAN	INF	12 Jun 2017
63952	N NIRANJAN SINGH	INF	12 Jun 2017
63953	JADHAV SANDIP ASHOK	INF	12 Jun 2017
63954	RISHABH PALIWAL	AOC	12 Jun 2017
63955	RAJESH JOSHI	INF	12 Jun 2017
63956	MALAYKANT MADHAVKANT	INF	12 Jun 2017
63957	ANIL KUMAR	INT	12 Jun 2017
63958	SANDEEP BHARDWAJ	AAD	12 Jun 2017
63959	SANDEEP SINGH GANDHOK	INF	12 Jun 2017
63961	N S BHOSALE	EME	12 Jun 2017
63962	PATIL SHREE VIKAS	INT	12 Jun 2017
63963	ASHUTOSH SRIVASTAVA	INF	12 Jun 2017
63964	BHANWAR RAKESH SHEKHAWAT	G/MECH	12 Jun 2017
63966	SANDEEP DHANKAR	INF	12 Jun 2017
63969	J NARHAYANAN	INF	12 Jun 2017
63970	AMIT KR JHA	ARTY	12 Jun 2017
63972	PANKAJ KUMAR	INF	12 Jun 2017
63974	ANIT GAUTAM	ARTY	12 Jun 2017
63976	ASHUTOSH CHAUHAN	AOC	12 Jun 2017
63977	AVINASH SINGH	INF	12 Jun 2017
63981	KULDEEP ASHOKRAO KARAPE	INF	12 Jun 2017
63982	PRAVEEN HOSMANE	INF	12 Jun 2017
63983	BIKASH MUKHIA	AOC	12 Jun 2017
63984	ANKUR SINGH	INF	12 Jun 2017
63987	AS BISHT	INF	12 Jun 2017
63988	N SUNDRAM	EME	12 Jun 2017

63990	KAPIL RIKHI	INF	12 Jun 2017
63992	ROOPESH	AAD	12 Jun 2017
63994	YOGINDRA ROY SIDDHI	INF	12 Jun 2017
63996	KUSH KASHYAP	INF	12 Jun 2017
63997	KAUSHALENDRA SINGH	INF	12 Jun 2017
63998	GAURAV SRIVASTAVA	ARTY	12 Jun 2017
63999	PANKAJ KUMAR	ARTY	12 Jun 2017
64000	SANDEEP SHANKAR	INF	12 Jun 2017
64003	GAGANDEEP SINGH SASAN	INF	12 Jun 2017
64006	NAVNEET GARG	INF	12 Jun 2017
64007	VIKAS YADAV	EME	12 Jun 2017
64008	AMISH RASTOGI	AC	12 Jun 2017
64009	TAMAN PARMAR	ASC	12 Jun 2017
64010	OLETY LAKSHMI VEERA NARESH	INF	12 Jun 2017
64012	BIRENDER PAL SINGH	ASC	12 Jun 2017
64013	KARAMJEET SINGH YADAV	ARTY	12 Jun 2017
64014	BIKRAMJEET SINGH NAJOTRA	ARTY	12 Jun 2017
64015	RAHUL MITTAL	INF	12 Jun 2017
64018	ANIMESH MITTAL	INF	12 Jun 2017
64019	AMIT SHARMA	INF	12 Jun 2017
64020	MANISH NEGI	INF	12 Jun 2017
64021	ANISH VASUDEVAN	AVN	12 Jun 2017
64022	UPPAN JEET SINGH	SIGS	12 Jun 2017
64023	SUNIL ATRI	INF	12 Jun 2017
64025	RANJEET SINGH YADAV	INF	12 Jun 2017
64029	UDAY PRATAP CHAURASIA	INT	12 Jun 2017
64030	ANANT RASTOGI	AAD	12 Jun 2017
64033	KUMAR SAURABH	AOC	12 Jun 2017
64034	RAJAT	ARTY	12 Jun 2017
64035	ANKIT KANJOLIA	MECH	12 Jun 2017
64036	JIWAN PREET SINGH	INF	12 Jun 2017
64037	PS MANI KANDAN	ASC	12 Jun 2017
64038	SURENDER SINGH NEGI	ARTY	12 Jun 2017
64039	PRAVEEN KUMAR SHARMA	AOC	12 Jun 2017
64040	ASHISH DEVLİYAL	INF	12 Jun 2017
64041	SANJEEV KUMAR GROVER	INF	12 Jun 2017
64043	RAJEEV KUMAR JHA	INF	12 Jun 2017
64044	AKHIL DHAWAN	INF	12 Jun 2017
64045	ANIMESH TAMANG	INT	12 Jun 2017
64046	SURENDER SINGH	G/MECH	12 Jun 2017
64056	NAGENDRA SINGH	INF	12 Jun 2017
64057	RAJESH GREWAL	INF	12 Jun 2017
64058	AJAY PAL SINGH	INF	12 Jun 2017
64059	ANIMESH DUBEY	INF	12 Jun 2017
64060	ASHOK BHANDARI	INF	12 Jun 2017
64062	PRADEEP SINGH NEGI	ARTY	12 Jun 2017
64063	SANDEEP DHANKAR	MECH	12 Jun 2017

64066	ATUL RAWAT	INF	12 Jun 2017
64067	AMIT ARVIND MALKAR	INF	12 Jun 2017
64069	SANJAY	INF	12 Jun 2017
64070	AJAY KAITH	INF	12 Jun 2017
64073	SARVESHWAR SINGH	INF	12 Jun 2017
64074	SHISHIR JUNEJA	AC	12 Jun 2017
64075	CHOUDHURY ASHISH KUMAR MISHRA	INF	12 Jun 2017
64076	VIPUL KUMAR	MECH	12 Jun 2017
64078	RAHUL RANJAN BHARTI	INF	12 Jun 2017
64079	MANISH PANT	INF	12 Jun 2017
64081	SATHEESH KUMAR V	INF	12 Jun 2017
64082	NOPENDER RANA	ASC	12 Jun 2017
64084	PUNEET BAUKHANDI	INF	12 Jun 2017
64087	SARVESH SHARMA	AVN	12 Jun 2017
64091	ASHUTOSH THAPLIYAL	INF	12 Jun 2017
64092	HOPENDER THAKUR	INF	12 Jun 2017
64093	RAHUL VAIJANATH MANE	ASC	12 Jun 2017
64094	KULKARNI RANJEET DILEEP	INF	12 Jun 2017
64096	JONATHAN DEEPAK SAMUEL	INF	12 Jun 2017
64098	RS SLATHIA	AC	12 Jun 2017
64102	MRINAL KUMAR SHEKHAR	INF	12 Jun 2017
64105	MISHRA ANUPAM KUMAR	INF	12 Jun 2017
64108	UPINDER PAL SINGH	AC	12 Jun 2017
64109	VIKAS YADAV	INF	12 Jun 2017
64110	PAWAN BRAHMA	INT	12 Jun 2017
64111	SARVESH KUMAR SHARMA	ARTY	12 Jun 2017
64112	GIJO J OZHAKKAL	INF	12 Jun 2017
64113	MOMIN AATIF IRFAN	ARTY	12 Jun 2017
64115	SUJIT KUMAR KRISHNAN	INF	12 Jun 2017
64117	NIEL UPAMANYU	ARTY	12 Jun 2017
64118	RAJEEV BHANDARI	INF	12 Jun 2017
64119	PRAMOD YADAV	INF	12 Jun 2017
64121	ANIL KUMAR MISHRA	G/MECH	12 Jun 2017
64123	SIDDHESWAR PRASAD DWIVEDI	ARTY	12 Jun 2017
64124	UGEN NAMDOL MAKPEN	INF	12 Jun 2017
64125	MIHIR KUMAR JHA	ASC	12 Jun 2017
64126	MUNISH SHARMA	AC	12 Jun 2017
64127	ASHISH SAJGOTRA	INF	12 Jun 2017
64128	NAVEEN MEHRA	INF	12 Jun 2017
64130	RANE RAHUL JAGDISH	SIGS	12 Jun 2017
64131	MOHIT CHAUHAN	ARTY	12 Jun 2017
64132	ANURAG VERMA	INF	12 Jun 2017
64133	VIJAY KUMAR	INF	12 Jun 2017
64134	TANMAY PANT	ARTY	12 Jun 2017
64135	VANAM VEDAVISWA PRAKASH	INT	12 Jun 2017
64137	RAMASHRAY YADAV	ASC	12 Jun 2017
64138	ANKUR KULSHRESTHA	INF	12 Jun 2017

64139	ASHUTOSH CHANDRA	INF	12 Jun 2017
64141	KARAN BHAGRA	ARTY	12 Jun 2017
64142	ABHISHEK CHAUDHARY	INF	12 Jun 2017
64144	RAHUL GUPTA	AOC	12 Jun 2017
64146	TARUN KUMAR TIWARY	INF	12 Jun 2017
64147	AKSHAY SINGH RANA	AAD	12 Jun 2017
64149	VIKRAM NEGI	AOC	12 Jun 2017
64150	ARINDAM DEB ROY	ARTY	12 Jun 2017
64151	RAJAT DHAKA	INF	12 Jun 2017
64153	PUNEET PURI	AC	12 Jun 2017
64154	BHUPESH BISHT	INF	12 Jun 2017
64155	BALWINDER SINGH	AAD	12 Jun 2017
64156	SHEKHAR WALIA	INF	12 Jun 2017
64157	ROHIT MEHRA	ARTY	12 Jun 2017
64158	TEJINDERPAL SINGH NAGI	INF	12 Jun 2017
64160	NITIN SINGH	INF	12 Jun 2017
64161	J ADINARAYANA REDDY	SIGS	12 Jun 2017
64162	JYOTI LAMA	INF	12 Jun 2017
64165	RAVI SHANKAR RAJAN	ASC	12 Jun 2017
64166	PRAMOD KUMAR KANWAR	INF	12 Jun 2017
64167	MUNISHWAR RAO PATHAK	ENGRS	12 Jun 2017
64168	VIKRAM VISHAL	INF	12 Jun 2017
64169	SUBHRA DEY	INF	12 Jun 2017
64171	AJAY SINGH RAWAT	INF	12 Jun 2017
64172	AJAY KUMAR	AC	12 Jun 2017
64174	KAPIL DEV SHARMA	ARTY	12 Jun 2017
64175	GOPAL SINGH PATIYAL	ARTY	12 Jun 2017
64178	MARKANDEY JEE	ARTY	12 Jun 2017
64179	ABHISHEK SINGH	INF	12 Jun 2017
64180	ANIRUDDHA RAO HR	INF	12 Jun 2017
64181	BHATIA AMANJEET SINGH	ENGRS	12 Jun 2017
64182	MAYANK BORA	ARTY	12 Jun 2017
64183	ROHIT DONGAONKAR	INF	12 Jun 2017
64186	PRADEEP GAGAIN	EME	12 Jun 2017
64188	JAYDEEP CHATTOPADHYAY	AC	12 Jun 2017
64189	BHISHAM KUMAR	MECH	12 Jun 2017
64190	MRIGANK MAYUKH	INF	12 Jun 2017
64191	L SURESH KUMAR	INF	12 Jun 2017
64192	DANDU VIJAY REDDY	INF	12 Jun 2017
64193	HITENDRA SINGH	INF	12 Jun 2017
64194	AJAY PATIAL	INF	12 Jun 2017
64195	PRANAV KORANGA	ARTY	12 Jun 2017
64196	TARKESHWAR AMOL	AC	12 Jun 2017
64197	GYANESHWAR SHARMA	ARTY	12 Jun 2017
64200	S UJJAWAL	INF	12 Jun 2017
64201	SUSHEEL KUMAR MAHAPATRO	AEC	12 Jun 2017
64204	DUSHYANT POONIA	ASC	12 Jun 2017

64206	MOHIT TEWARI	ARTY	12 Jun 2017
64208	IQBAL SINGH	INF	12 Jun 2017
64212	SHASHANK MIAN	ARTY	12 Jun 2017
64214	AR MITTRA	EME	12 Jun 2017
64215	AMIT NEGI	EME	12 Jun 2017
64216	HIMANSHU RANA	EME	12 Jun 2017
64218	SANDEEP GAGAIN	SIGS	12 Jun 2017
64219	GURMEET SINGH VIRDY	ENGRS	12 Jun 2017
64221	KELKAR SHRIKRISHNA BHARAT	ENGRS	12 Jun 2017
64222	RAVINDER BHATIA	EME	12 Jun 2017
64225	HENRY PASRIJA	EME	12 Jun 2017
64226	LAKSHYAJEET SINGH CHAUHAN	EME	12 Jun 2017
64228	TUSHAR SINGH	EME	12 Jun 2017
64229	RIPUDAMAN	SIGS	12 Jun 2017
64230	GAURAV BHATIA	ENGRS	12 Jun 2017
64232	AJEET YADAV	EME	12 Jun 2017
64233	ATUL CHANDRA SRIVASTAVA	ENGRS	12 Jun 2017
64234	NITESH AGARWAL	EME	12 Jun 2017
64236	AMRESHWAR SINGH	INF	12 Jun 2017
64238	NITESH NAGPAL	AVN	12 Jun 2017
64240	SOM PRAKASH SHARMA	EME	12 Jun 2017
64241	AKASHAY SATI	SIGS	12 Jun 2017
64242	MANDEEP SINGH	EME	12 Jun 2017
64243	VIVEK SINGH PARIHAR	EME	12 Jun 2017
64244	YOGESH KUMAR	INT	12 Jun 2017
64246	MURALI KISHORE VELAGADA	EME	12 Jun 2017
64247	SUMIT SINGH	SIGS	12 Jun 2017
64248	ASHISH PATWAL	SIGS	12 Jun 2017
64250	ANAND KUMAR	ENGRS	12 Jun 2017
64251	SANKET SETH	EME	12 Jun 2017
64252	MANOJIT DAS	EME	12 Jun 2017
64253	KAMAL BHARDWAJ	SIGS	12 Jun 2017
64255	MANAS VERMA	EME	12 Jun 2017
64259	ROBERT TA	ENGRS	12 Jun 2017
64261	AMIT PANDEY	EME	12 Jun 2017
64265	ASHISH NEGI	SIGS	12 Jun 2017
64268	ABHISHEK AGNIOTRI	EME	12 Jun 2017
64269	RAHUL LINGWAL	SIGS	12 Jun 2017
64271	ANUJ KUMAR TRIPATHI	ENGRS	12 Jun 2017
64274	APPALA ABHISHAKE	EME	12 Jun 2017
64277	ASASHAY SHIV	ENGRS	12 Jun 2017
64278	HEMENDRA KAUSHIK	SIGS	12 Jun 2017
64287	CHANDRA PRAKASH	AEC	12 Jun 2017
64296	RAM NARESH SHARMA	AEC	12 Jun 2017
64320	RAKESH KUMAR	AEC	12 Jun 2017
64384	ANANT THAPAN	AEC	12 Jun 2017
64387	ANIL KUMAR	AEC	12 Jun 2017

68372	DEEPAK GHALOTRA	SIGS	13 Jun 2017
68373	HITENDER YADAV	EME	13 Jun 2017
68376	VARUN CHANDER	EME	13 Jun 2017
68378	ANKIT GUPTA	EME	13 Jun 2017
68379	BHATT ANANT RAJESHKUMAR	SIGS	13 Jun 2017
68380	KULDEEP YADAV	ENGRS	13 Jun 2017
68381	RAMENDRA DUTTA MATHUR	EME	13 Jun 2017
68386	ANKIT AGARWAL	EME	13 Jun 2017
68389	MAYANK NAGPAL	SIGS	13 Jun 2017
68390	SV ASHOK	SIGS	13 Jun 2017
68391	S PRADEEP	ENGRS	13 Jun 2017
68394	NAGARKAR PRATAP RAMMOHAN	EME	13 Jun 2017
68395	RAJBIR SINGH VIRK	SIGS	13 Jun 2017
68396	LOHAKARE NAINISH BHASKAR	SIGS	13 Jun 2017
68399	RAJURKAR ANIRUDDHA DATTATRAYA	ENGRS	13 Jun 2017
68401	RITU RAJ SINGH	EME	13 Jun 2017
68403	SACHIN CHETAL	EME	13 Jun 2017
68404	LAXMISHA SUVARNA	ENGRS	13 Jun 2017
68406	SM MOHAN	EME	13 Jun 2017
68410	VARUN CHHABRA	SIGS	13 Jun 2017
68411	AJAY SANWAL	AAD	13 Jun 2017
68412	VARUN PRAKASH	EME	13 Jun 2017
68414	PRASHANT SHANDILYA	SIGS	13 Jun 2017
68415	NAVTEJ SINGH RANDHAWA	SIGS	13 Jun 2017
68416	NITIN LANGEH	SIGS	13 Jun 2017
68417	PONNAPPA M B	SIGS	13 Jun 2017
68421	NIMIT SURI	EME	13 Jun 2017
68422	KULKARNI TANMAY RAJEEV	SIGS	13 Jun 2017
68426	KARTHIK C	EME	13 Jun 2017
68428	MANISH KUMAR YADAV	SIGS	13 Jun 2017
68429	MONINDRA MASIA	SIGS	13 Jun 2017
68430	NAVEEN DAGAR	SIGS	13 Jun 2017
68435	MAHAIL JAIN	EME	13 Jun 2017
68436	SHARATH MU	EME	13 Jun 2017
68438	MUKESH KUMAR SINGH	SIGS	13 Jun 2017
68441	RAJA SEKAR M	ENGRS	13 Jun 2017
68445	APURVA A BHATNAGAR	SIGS	13 Jun 2017
68446	SUJIT S NAIR	SIGS	13 Jun 2017
68447	SWAGAT KUMAR PATRA	SIGS	13 Jun 2017
68448	AADITYA NIGAM	EME	13 Jun 2017
68449	BHARAT KUMAR	EME	13 Jun 2017
68450	SANTOSH KUMAR	EME	13 Jun 2017
68454	PAWAR UMESH ANKUSH	EME	13 Jun 2017
68458	PALLAV KATIAL	EME	13 Jun 2017
68459	NIKHIL KUMAR	SIGS	13 Jun 2017
68460	ABHISHEK KOSHAL	SIGS	13 Jun 2017
68461	DHIRAJ KUMAR JASROTIA	SIGS	13 Jun 2017

68462	SUJIT S JOSHI	EME	13 Jun 2017
68465	DESHMUKH SUJEET DAULAT	SIGS	13 Jun 2017
68468	SACHIN NIMBALKAR	EME	13 Jun 2017
68470	VIKRAM SINGH	EME	13 Jun 2017
63798	ROHIT SURI	INF	12 Jun 2017
63936	ABHISHEK SHARMA	AC	12 Jun 2017
63968	KAMLESH KUMAR	ARTY	12 Jun 2017
64085	MRIDUL KHANDELWAL	ARTY	12 Jun 2017
64107	RAVINDER SINGH	INF	12 Jun 2017
64159	PANKAJ AGGARWAL	INF	12 Jun 2017
64272	GAURAV NEGI	SIGS	12 Jun 2017
68387	PRASAD MANDGAONKAR	EME	13 Jun 2017
68425	G ANURAG KIRAN	SIGS	13 Jun 2017

PERS No.	NAME	ARMS
IC-64775	BORKAR KUNAL S	ENGRS

—11 DEC 2015

Pers No.	Name	Arms
IC-65742	M SINGH	EME

—07 MAY 2016

IC No.	Name	Arms	Date of Promotion
65908	Harmik Singh	AOC	06 May 2017
65910	Pophale Dinesh Anant	INT	06 May 2017
65923	Amit Yadav	AOC	06 May 2017
65925	Sisir Chettri	Inf	06 May 2017
65932	Amit Issar	AC	06 May 2017
65933	Sunder Raj	EME	06 May 2017
65938	Enos Massey	Inf	06 May 2017
65939	Romael	AOC	06 May 2017
65940	Sudipta Poti	ASC	06 May 2017
65943	T Satish Babu	Inf	06 May 2017
65955	Tarun Sawhney	Arty	06 May 2017
65965	Anoop Rana	AOC	06 May 2017
65967	Athul Sreedharan	Inf	06 May 2017
65969	Alok Singh	Engrs	06 May 2017
65978	Naveen N	Inf	06 May 2017
66003	Y Suresh Kumar	AC	06 May 2017
66010	Kulveer Singh Gahlawat	EME	06 May 2017
66012	Yeshika A Womi	Inf	06 May 2017
66014	Tandeep Dhindsa	Arty	06 May 2017

PERS NO.	NAME	ARMS
IC-67831	RAKESH SINGH	ENGRS

—14 DEC 2016

IC No.	NAME	ARMS	DATE OF PROMOTION
68433	SHUKLA ATUL KUMAR SURESH	EME	13 JUN 2017

68439	BIKRAMJEET SINGH	SIGS	13 JUN 2017
72795	M DANISH SIDDEQUE	ENGRS	21 Apr 2017
72796	GAURAV SAWHNEY	EME	21 Apr 2017
72798	JAGDEV SINGH YADHAV	EME	21 Apr 2017
00258	NISHAN SINGH	ARTY	24 Oct 2016
00379	BALBIR SINGH	ARTY	24 Oct 2016
00462	SARAVANAN THANGAVELU	AOC	12 Jun 2017
SC00466	THAMPAN A	AC	12 Jun 2017
04778	Biju S	SL B/R	03 Jul 2017
04811	Pardeep Kumar	SL RO	03 Jul 2017
04812	Poly Abraham	SL RO	03 Jul 2017

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION (SL)

MAJ TO BE LT COL

SL No.	Name	Arm
04775	B Jayasankaran	SL B/R
04777	Bhosale Shashikant Kundlik	SL B/R
04780	Kirtan Singh	SL RO
04781	Sanjeeva Kumar	SL E/M
04782	Bharat Bhushan Chauhan	SL RO
04783	Madan Gopal Kumawat	SL TOT
04784	Ajay Kumar Karn	SL RO
04785	Thomas PK	SL TOT
04786	Paul Varughese	SL TOT
04787	D Rajesh	SL TOT
04788	Vikram Gaikwad	SL AE
04789	Hans Raj	TEO (Arty)
04792	Anil Kumar	SL RO
04793	Aftab Ahmad	SL RO
04794	K Upendra Varma	CIPHER
04795	Govindan Kutty Nair	SL RO
04796	Ishwar Singh	SL RO
04797	G Vetrivel	SL AOC
04798	Arjun Singh	SL RO
04799	Sree Kumar VR	SL RO
04800	M Manivannan	SL RO
04801	P Om Ganapathy	SL RO
04802	Hari Kumar PV	SL RO
04803	Haridasan Edalath	SL RO
04805	Johny PK	SL RO
04806	Ajitha BK	SL RO
04809	Radhakrishna Pillai KV	SL AOC
04810	Sukumaran P	SL RO
04815	Dhirendra Kumar Singh	SL RO
04816	Deepak Sharma	SL RO

04817	K Unnikrishnan	SL RO
04819	Rakesh Kumar	SL RO

—03 Jul 2017

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)
MAJ TO BE LT COL

SS NO.	NAME	ARM	LT COL WEF
40274	SONAWANE SANJAY KUMAR BABANRAO	ARTY	06 MAY 2017

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION (WS)
MAJ TO LT COL

WS No.	Name	ARMS	Date of Promotion
00785	SURABHI SHARMA	ENGRS	24 Oct 2016
01115	MADHU RANA	EME	17 Mar 2017

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
CAPT TO BE MAJ

IC No.	Name	Arm	Date of Substantive Major
74835	KHIRODO KUMAR PATRO	INT	11 December 2016
74848	DINESH PRASAD	ARTY	11 December 2016
74893	AMIT DABAS	INF	11 December 2016
74925	SANJAY GIRISH NAMBIAR	ENGRS	11 December 2016
75085	RAVINDER SINGH RAWAT	INT	11 December 2016
75149	SURYA SHREEDHAR	ENGRS	11 December 2016
75217	AISHWARYA BARTWAL	EME	11 December 2016
75221	NEERAJ SINGH	EME	11 December 2016
75554	PARITOSH RAWAT	ARTY	11 June 2017
76322	AMANDEEP SINGH	AAD	12 December 2016
76399	KSHITIJ VISHAL	INT	12 December 2016
76972	SACHIN KUMAR	ENGRS	12 June 2017
76978	PARAMJEET SINGH	INF	12 June 2017
76982	PRAVEEN KUMAR K	EME	12 June 2017

IC No.	NAME	ARM
75296	RAMKUMAR B	INF
75297	RAGHAV SWARUP GUPTA	INF
75298	SHINDE PRASHANT PANDHARINATH	AC
75299	ROHIT SHEKHAR	INF
75300	SOURABH KABRA	INF
75301	SUVEER RATHORE	INF
75302	ABHIMANYU SHARMA	INF
75303	NARENDRA SINGH SHEKHAWAT	INF
75304	PARTH CHANDEL	INF
75305	PIYUSH SINGH	ARTY

75306	MOHIT SHARMA	ASC
75307	VASU BANATHIA	INF
75309	ABHISHEK SHARMA	INF
75310	HIMANSHU THAPLIYAL	MECH INF
75311	DINESH CHAHAR	ARTY
75312	SHAKTI SINGH	ARTY
75313	JUNAID BINI SAIYIDAIN BEG	AC
75314	T ANURAG	INF
75315	MANOJ KANWAL	AOC
75316	ARJUN PANWAR	ENGRS
75317	AMIT KUMAR	INF
75318	HUMESH TUTEJA	ARTY
75319	VINAYAK GUPTA	ARTY
75320	SHWETANK TYAGI	ARTY
75321	DIWAKAR KUMAR	AOC
75322	ANAND NASHIKKAR	INF
75323	AKSHAY RAJENDRA PISAL	ARTY
75324	SHASWAT KUMAR	ARTY
75325	ANAND KUMAR TIWARI	INF
75326	LOKENDRA PATEL	AVN
75327	SARTHAK TYAGI	INF
75328	SUSHANT GAUR	ARTY
75329	C V S NIKHIL	INF
75330	PRAVESH KUMAR	INF
75331	SANDEEP PATNAIK	ASC
75332	GOPA KUMAR G	INF
75333	SINGH ABHISHEK NEPAL SINGH	INF
75334	ASHUTOSH SHUKLA	ARTY
75335	PANKAJ BISHT	INF
75336	BHUVAN VIKRAM	ARTY
75337	SUKHWINDER SINGH	EME
75338	DAYANAND SINGH	INF
75339	NAKUL SHARMA	INF
75340	AMET VIKRAM	INF
75341	SUDHIR KUMAR KALA	AC
75342	SAMARJEET SINGH DEHAL	INF
75343	AMIT KUMAR TYAGI	INF
75344	ARDHENDU KUMAR	MECH INF
75345	MAYANK MISHRA	ARTY
75346	RAJIB KUMAR SAHOO	SIGS
75347	NEERAJ NANDAKUMAR	ARTY
75348	PRAVEEN KUMAR TIWARI	INF
75349	SUMANT TYAGI	ARTY
75350	AKHIL KUMAR TRIPATHI	INF
75351	AMAR VIJAYKUMAR BOMBATKAR	INF
75352	PRAVEEN NANDKUMAR KALE	INF
75353	HARISH BOORA	INF

75354	KUNA ANIL KUMAR	ARTY
75355	SURENDER SINGH	ARTY
75356	M R SUHAS	INF
75357	HARSH GUPTA	INF
75358	RAJKUMAR	INT
75359	KARAMVEER BAJROLIYA	INF
75360	GOVIND SINGH KARKI	INF
75361	ASHWANI KUMAR	SIGS
75362	VIMAL ROY	INF
75363	RITAPA	INF
75364	SATVINDER SINGH	ARTY
75365	SUCHI BRAT MANDAL	INF
75366	MORE RAHUL TANAJI	EME
75367	AMIT PRATAP SINGH	ARTY
75368	SUDESH J	ARTY
75369	SUMIT SHARMA	INF
75370	ALOK BHASKAR	INF
75371	AMBUJ	AC
75372	ASHISH KUMAR SINGH	ASC
75374	R KAUSHAL	ARTY
75376	RANJITSINH NITEEN SONAWANE	INF
75377	G SATISH KUMAR	ARTY
75379	PUNEET CHOUDHARY	EME
75380	VIRENDER SINGH	AAD
75381	ABHIJIT SINGH TOMAR	INT
75382	NEERAJ KUMAR GAUR	AC
75383	ABHAY SINGH	INF
75384	PARVEZ ALAM	INF
75385	SUDHIR KUMAR	ASC
75386	JARMAL SINGH	EME
75387	LALIT SINGH SOUN	ARTY
75388	PRERAK JOSHY	INF
75389	PRASHANT CHAUDHARY	AOC
75391	SIMARPREET SINGH	AC
75392	MANISH PONIA	ENGRS
75393	NEIKHOTSO SECU ANGAMI	INF
75394	DEEPANSHU NAGAR	AOC
75396	AMIT KUMAR	INF
75397	MRUNAL KEWAL DONGARE	SIGS
75398	SUMIT DATTATRAY MARTANDE	INF
75399	ANKIT KUMAR POONIA	ARTY
75400	JOGINDER SINGH	ARTY
75401	SANTOSH KUMAR SINGH	INF
75402	RAKESH KUMAR SINGH	ASC
75404	PRAMOD KUMAR	AOC
75405	BALAJI S	ARTY
75406	VINOD KUMAR PANY	MECH INF

75407	ISHAN PAL	ENGRS
75408	RAJNEESH SHARMA	AC
75409	MANISH	ARTY
75410	VIKRANT PAUL	INF
75411	MUNEET SINGH	INF
75412	GAGANDEEP SINGH	ASC
75413	SUDHIR KUMAR	AOC
75414	HITESH YADAV	INF
75415	SARTAJ PAL SINGH	ENGRS
75416	DHEERAJ JODHA	INF
75417	SUMIT KUMAR TIWARI	ARTY
75418	AKSHANSH SHARMA	ARTY
75419	RAVINDRA KUMAR VERMA	ASC
75420	JAISHANKAR	INF
75421	MUDAPAKA DINESH KUMAR	INF
75422	KARMENDRA KRISHNA	ARTY
75423	NITESH KUMAR	INF
75424	YOGESH	INF
75425	CHANDRA SHAKHER VASHISTHA	ARTY
75426	MANISH KUMAR	INF
75427	SURAJ PRATAP SINGH	ASC
75428	ANSHUL KHARYAL	ARTY
75429	ANKUR KUMAR BASHOTRA	AC
75430	SAIKAT BHATTACHARYA	INF
75431	MUDIT GULATI	AC
75432	DEEPAK KUMAR MISHRA	AAD
75433	UDIT RANA	INF
75434	NITISH SHARMA	AOC
75435	SAMEER KUMAR	ARTY
75436	BHATT KASHYAP HEMANT	SIGS
75437	PRABAL SINGH	ASC
75438	PRATEEK SAXENA	INF
75439	SUBHASH BISHNOI	ARTY
75440	GEORGE THALIATH	INF
75441	HITESH MALIK	EME
75442	SHAILENDRA SHEORAN	ARTY
75443	ABHISHEK RAJVANSHI	ARTY
75444	HIMANSHU TEWARI	ARTY
75445	ALEX LALMUANPUA	INT
75446	ANKUSH KUMAR	ARTY
75447	RAJIB CHHETRI	ARTY
75448	BIRANJAY KUMAR	INF
75449	PRASHANT SONI	AAD
75450	SHYAMAL KHARE	AAD
75451	ROHIT MANDHOTRA	AC
75452	ANKIT SINGH	ARTY
75453	KUNAL MAHAJAN	ARTY

75454	ADITYA KUMAR	INF
75455	SUBRATA KUMAR MISRA	ARTY
75457	RAM CHANDRA THAPA	INF
75458	RAKESH KUMAR	AC
75459	PANKAJ BHATTACHARJEE	INF
75460	SANGRAM SINGH	AAD
75461	SAKET KUMAR	INF
75462	PAWANPREET SINGH	INF
75463	SWAGAT DAS	INF
75464	NILANJAN BATABYAL	INF
75465	ABHISHEK KUMAR	AOC
75466	VIJAY RAI	ARTY
75467	ASHUTOSH PARASHAR	INF
75468	AASHISH KUMAR	ENGRS
75469	M HEMJIT MOIRANG	ARTY
75470	HAPPY CHARAK	INF
75471	DHEERAJ	INF
75472	VISHAL KUMAR CHOUDHARY	INF
75473	KUMAR SUNJEET	ARTY
75474	GAURAV BALHARA	ENGRS
75476	S GOPINATH YADAV	AAD
75477	KUNWAR PRASHANT SINGH	INF
75478	AMOL PREET SINGH BALA	AVN
75479	MOHIT MALIK	ARTY
75480	NYAMNYEI PHOM	INF
75481	PRADEEP KUMAR BHUYAN	ARTY
75482	ARJUN RATHI	EME
75483	JORAWAR SINGH	ARTY
75484	ANKUR TIWARI	AC
75485	PUNEET SHARAN	ARTY
75486	GAURAV KUMAR	ARTY
75487	MOHIT KHATTRI	ARTY
75488	PAPPU KUMAR YADAV	ARTY
75489	VAIBHAV VERMA	AOC
75490	PARMINDER SINGH	INF
75491	RAHUL BALAMOCHAN	INF
75492	ABHISHEK SINGH NABIYAL	INF
75493	VIKRANT VERMA	AOC
75494	SATYAM KUMAR DUBEY	ARTY
75495	KOUSHIK G	SIGS
75496	RUDRASHISH MAJUMDER	AOC
75497	MOHD ASHRAF MIR	AOC
75498	M ARUNKUMAR	INF
75499	RADHESHYAM	INF
75500	SUNIL KUMAR	MECH INF
75501	GAURAV SHARAD JADHAV	ARTY
75502	ASHWINI KUMAR SINGH	ARTY

75503	SANDEEP SINGH BHAMRA	INF
75504	ARPIT RANA	ASC
75505	RANA WASIM AHMED SHARAFAT ALI	ARTY
75506	AMAN SHARMA	AC
75507	VIVEK SANGWAN	INT
75508	GAURAV RAWAT	INF
75509	SUNIL KUMAR	INF
75510	TARIF SINGH	EME
75511	PRASHANT SRIVASTAV	ARTY
75512	AJAY PRATAP SINGH	INF
75513	KRIPENDRA SINGH	INF
75514	VIVEK GANGAL	ARTY
75515	ANKIT SHEOKAND	ASC
75516	NAVEEN JAJUNDA	INF
75517	PRAMOD KUMAR KASANA	ASC
75518	DURGESHWAR PRATAP SINGH	INF
75519	PABITRO KUMAR MAJUMDAR	ARTY
75520	RINKU PANDA	ARTY
75521	DEEPAK KUMAR	ARTY
75522	ABHISHEK R CHANDAVARKAR	AAD
75523	AKHIL	MECH INF
75524	VIKAS SHEORAN	INF
75525	YASHWANT SINGH	ARTY
75526	PRIYANKER DUTTA	ARTY
75527	ANSHUL CHOUDHARY	AC
75529	SUDHIR KUMAR TOMAR	ASC
75530	RAHUL MALHOTRA	AC
75532	SANGRAM SINGH CHIB	EME
75534	ANKUR SINGH RANA	ENGRS
75535	DIVYASHANKH SARMA	MECH INF
75536	DABHADE TUSHAR MRUNALKANT	INF
75537	MRIDUL KANT CHOWDHURY	ARTY
75538	JOHN KENNEDY NINGTHOUJAM	INF
75539	RAJAN KUMAR	INT
75540	MOHIT DIMRI	SIGS
75541	SUNIL KUMAR	ARTY
75542	SUNIT MISHRA	ARTY
75543	VIJAY KUMAR	ARTY
75544	MAYANK KUMAR SINGH	AC
75545	PREM SINGH	ARTY
75546	BIRENDRA KUMAR	ARTY
75547	SAURAV SHARMA	INF
75548	TRISHAY SINGH SHEKHAWAT	INF
75549	REDKAR PRANAV MANGESH	INF
75551	NAVNEET THAKUR	INF
75552	LAISHRAM MANORANJAN SINGH	AOC
75553	KUMAR ABHISHEK	AVN

75555	GURDIL SINGH JOHAL	ARTY
75556	VINENDER YADAV	INF
75557	SWADESH KUMAR DUBEY	AC
75558	RITESH SANGWAN	INF
75559	DEBESH BANIK	INF
75560	HARSHDEEP SINGH	INF
75561	ASHUTOSH TIWARI	ASC
75562	BRAJESH BENIWAL	ARTY
75563	AMIT GUNJAN	INF
75564	UPAL SENGUPTA	INF
75565	RAMNATH J R	INF
75566	ABHISHEK DIWAN	ARTY
75567	DHARMVEER SINGH	EME
75568	RAJPAL SINGH SHEKHAWAT	INF
75569	TANMOY BISWAS	SIGS
75570	ABHISHEK VISHWANATHAN	INF
75571	SUSHIL JAKHAR	INF
75572	AMAR SINGH	INF
75573	CHANDRAKAR KUMAR CHOUHAN	INF
75574	PAROLEKAR DARSHAN PRAKASH	ARTY
75575	ANOOB KRISHNAN	ARTY
75576	SAMEER KANT DWIVEDI	AAD
75577	ARUN KUMAR R	ARTY
75578	HIMANSHU CHAUDHARY	ARTY
75580	GAURAV ANAND BOURAI	ENGRS
75581	SUNIT KUMAR SINGH	AOC
75582	KARAN THOMAS JOSEPH	INF
75583	RANJEET KUMAR	ASC
75584	VINAY KUMAR	INF
75585	AKHILNATH C H	ARTY
75587	AMIT CHOUDHARY	ASC
75588	LALIT KUMAR PRADHAN	INF
75589	TUSHAR SINHA	INF
75590	AMIT SHARMA	MECH INF
75591	BHAWANI SINGH	INF
75592	AMBRE VAIBHAV SUNILKUMAR	INF
75593	RANE SIDDHESH ARUN	INF
75594	ABHYUDAI SINGH CHAUHAN	INF
75595	ABIR KUMAR GHOSH	AOC
75596	PIYUSH GROVER	INF
75597	JEE THOMAS	SIGS
75598	KAPIL TOMAR	ASC
75599	PRADEEP JANGRA	ENGRS
75600	VAIBHAV	INF
75601	ABHISHEK SINGH	ENGRS
75602	OASIS KUMAR	INF
75603	PIYUSH SHARMA	SIGS

75604	ANKIT SUKHIJA	EME
75605	VIKAS TYAGI	INF
75606	GOVIND PRAJAPATI	AC
75607	VIKASH SHARMA	AVN
75608	KOCHERLAKOTA ARVIND	ENGRS
75609	SIDDHARTH MISRA	EME
75610	TUSHAR MANHAS	ENGRS
75611	RAHUL SOLANKI	SIGS
75613	SUMIT YADAV	SIGS
75614	SHARATHRAJ M V	EME
75615	AVINASH PILAJI KALE	EME
75616	SANDEEP KUMAR PANDEY	EME
75617	SREENATH V E	ARTY
75618	AMIT SINGH	ARTY
75619	VISPUTE SWAPNIL DILIP	SIGS
75620	RAJESH THAPA	EME
75621	CHITARANJAN SAHU	INF
75622	APURVA NARAYANA	ENGRS
75623	DEEPAK MALIK	EME
75624	SHEKHAR DEEP	INF
75625	VIPRANSHU PANDEY	ENGRS
75626	TANUJ GAIROLA	ENGRS
75627	PRADEEP BAGHEL	INF
75628	KULDIP SINGH YADAV	INF
75629	VIVEK PATHAK	ENGRS
75630	AJAY PRATAP SINGH RATHORE	ARTY
75631	DHARAMVIR KUMAR CHAURASIA	ENGRS
75633	HARIT SHARMA	EME
75634	DEEPAK KUMAR MISHRA	EME
75635	PORUS DOGRA	ARTY
75636	TARUN VERDHAN	SIGS
75637	PRAVEEN KUMAR	INF
75638	KUNAL GUSAIN	ENGRS
75639	ATUL JASWAL	EME
75641	ADITYA JASROTIA	ENGRS
75642	MANISH KUMAR YADAV	ENGRS
75643	ANKIT GUPTA	EME
75644	YOGESH BISHT	INF
75645	SAURABH DESHWAL	INF
75646	VARUN KULSHRESTHA	SIGS
75647	ANAND KUMAR SINGH	AOC
75649	PARTH CHAUHAN	ARTY
75650	ABHISHEK AHLAWAT	EME
75651	ULLAS PRASAD SOTI	INF
75652	ABHISHEK KULKARNI	AAD
75653	VARUN K C	EME
75654	MANVENDRA SINGH	ENGRS

75655	SHASHWAT KHARE	AC
75656	RAMESHWAR SINGH	MECH INF
75657	VIPUL PATHAK	SIGS
75658	JYOTI RANJAN SATAPATHY	SIGS
75740	KATDARE ADITYA RAJAN	AEC
75818	RAKESH SINGH	AEC

—11 Jun 2017—

76937	VIPIN BHATT	ENGRS
76938	ROBIN SHROTRIA	ASC
76939	KHUSHVINDER SINGH	ARTY
76940	MUTCHI VENKATA DIVYA SAGAR	ARTY
76941	SUNDEEP KUMAR SINGH	ASC
76942	SHREYAS G S	AC
76943	SIDDHARTH MISHRA	AAD
76944	AJIT KUMAR	SIGS
76945	HARMANDEEP SINGH CHEEMA	AC
76946	VISHWAMITRA ANGARIKA	ASC
76947	SORAISHAM OKENDRO	ARTY
76948	HARSHA	SIGS
76949	MANGAL BARAL	EME
76950	BALJEET BHARDWAJ	ARTY
76951	ABHISHEK WAL	SIGS
76952	ABHINAVA SHARMA	EME
76953	KULKARNI SHRIPAD DILIPRAO	INF
76954	NIKHIL RAJ V	ARTY
76955	PRASHANT SUREGAONKAR	ENGRS
76956	JEEVAN B UTHAIAH	ENGRS
76957	AMARDEEP DANGI	INF
76958	VISHAL G	ENGRS
76959	ARSHDEEP SINGH SODHI	SIGS
76960	PRADEEP SINGH	ENGRS
76961	ANKUR VERMA	ASC
76963	AMIT PATIL	ENGRS
76964	ARVIND KUMAR PATHAK	SIGS
76965	PARTHA MOHANTY	EME
76966	ANAND M S	INF
76967	GAURAV GUPTA	EME
76968	AMIT KUMAR YADAV	EME
76969	RISAAC VALAN FERNANDO	ENGRS
76970	PRATEEK SHARMA	SIGS
76971	ASHUTOSH KUMAR SINGH	AAD
76973	CHETAN KUMAR	INF
76974	SUNIL KUMAR	INF
76975	CHAVAN SWAPNIL SUBHASH	EME
76976	ABHISHEK KUMAR	EME
76977	ASHUTOSH KUMAR	ARTY
76979	GAURAV TRIPATHI	INF
76980	SAURABH PANDEY	MECH
76981	C SARATH CHANDRAN	EME

76983	ASHISH THAKUR	ENGRS
76984	ANANT V NALAWADE	EME
76985	MUKESH PRATI HAR	SIGS
76986	THEKKUVEETIL AKHIL ASHOK	EME
76987	SAIRAM K	ARTY
76988	ROBIN DEV ANAND	INF
76989	MAYANK SINGH KAURAV	EME
76990	DALJEET SINGH PATHANIA	INF
76991	SACHIN DIXIT	SIGS
76992	VISHAL BHURIA	ENGRS
76993	DAVEEN KUMAR	EME
76994	RAHUL SHARMA	ENGRS
76995	JOSH MATHEW	INF
76996	MANENDER YADAV	ENGRS
76997	HEMACHANDRA B	INF
76998	WAGHMARE HRISHIKESH JAYWANT	MECH
76999	JONA RENGMA	EME
77000	TAVNEET SINGH LAMBA	ENGRS
77001	SANI KUMAR	SIGS
77002	AKHIL	EME
77003	R SHARATH	EME
77004	ANUJ SINGH	ENGRS
77005	HEMANT KUMAR SHARMA	ENGRS
77006	YUVRAJ SINGH	SIGS
77007	AKHIL KUMAR SHARMA	ENGRS
77008	RAJEEV KAUSHAL	SIGS
77010	PARAMVEER SINGH RATHORE	ARTY
77012	DEEPAK SHARMA	EME
77013	PATEL HITEN MANILAL	ENGRS
77014	AMIT KUMAR PANDEY	EME
77015	ANANT SAURABH BAHL	ENGRS
77016	BHARAT SATI	INF
77017	AJIT CHOUDHARY	ENGRS
77018	RAHUL SHARMA	SIGS
77019	VIKRANT	INF
77020	NITESH KUMAR	ARTY
77021	KOLHAPURE ABHISHEK ARUN	EME
77022	ARUN KUMAR	ASC
77023	VISHAV DEEP	EME
77024	DEVWRAT KAMBOJ	AC
77025	ABHIMANYU MUND	SIGS
77026	ANKIT KUMAR	ENGRS
77027	MEETINDER SINGH	AAD
77028	SHASHANK YADAV	ENGRS
77029	PRAVEEN KUMAR BHASKAL	INF
77030	CHIRAG CHATTERJEE	AOC
77031	ANKIT SHEKHAR SINGH	ARTY
77032	SAMRIDH SOOD	SIGS
77033	SIMRANJEET AMRIK SINGH	SIGS
77034	PANKAJ TIWARI	EME

77035	URUJ HAIDER JAFRI	ENGRS
77036	GAURAV GAUR	EME
77037	DIGVIJAY VISHNUDAS KANSE	ENGRS
77038	ANURAG SHUKLA	AOC
77039	H G ABHIYANTH	EME
77040	JITESH CHADHA	ENGRS
77042	DEEPAK CHANDALIYA	SIGS
77043	VIVEK SINGH	ENGRS
77044	PANKAJ SAIKIA	ENGRS
77045	HARSH VARDHAN BHATT	EME
77046	OM PRAKASH PRASAD	INF
77047	SOURAB GUPTA	ENGRS
77049	MANJUNATH GUNJIKAR	ENGRS
77050	ABHISHEK REPSWAL	ENGRS
77051	YOGARAJ R	INF
77052	ASHWYN CHANDRASHEKAR	ENGRS
77053	ANKIT DAHIYA	INF
77054	DILIP UNNI	EME
77055	YATISH KUMAR GAUTAM	ENGRS
77056	PARAMJEET SINGH	ARTY
77057	RAHUL SHARMA	EME
77058	GIRISH SHARMA	EME
77060	ABHISHEK JAMES	ARTY
77061	BHARAT SINGH SHEKHAWAT	SIGS
77062	VIJISH RAJ A	ENGRS
77063	ADARSH T	INF
77064	SUHAS S PATIL	INT
77065	PRAVEENKUMAR MUCHANDI	AC
77066	MANPREET SINGH	SIGS
77067	ARVIND B NAIR	EME
77068	NACHHATAR SINGH GORAYA	INF
77069	AMAN DUTT	EME
77070	VIBINTH A	EME
77072	PRASHANT RAI	SIGS
77073	PRADEEP SINGH TANWAR	AOC
77074	AJEET SINGH MAURYA	ARTY
77075	TANUL PATHAK	ARTY
77076	GARY A JOSEPH	ENGRS
77077	ANIRUDHA GOHAIN BARUAH	SIGS

—12 JUN 2017—

REGULAR ARMY
SPECIAL COMMISSION
CAPT TO MAJ

SC No.	NAME	ARM
00639	SURENDRA SINGH NEGI	AOC
00640	JASBIR SINGH	AC
00642	LANUMAR	INF
00643	BIJENDAR SINGH	MECH INF

00644	MUKESH KUMAR BASNET	INF
00645	PRITHVI SINGH	ARTY
00646	KULDEEP SHARMA	INF
00647	ALOK KUMAR SINGH	AC
00648	NAVNISH GURUNG	INF
00649	SHANKAR KUMAR	INF
00650	AMOL KUMAR	ARTY
00651	RAMANJIT SINGH KALA	ASC
SL-05398 (SC00652)	AVIJIT DAWN	SL (APTC)

—11 Jun 2017—

REGULAR ARMY
SPECIAL LIST COMMISSION
CAPT TO BE MAJ

SL No.	Name	Arm
05146	KASAM KHAN	SL APTC
05147	SATISH KUMAR	AEE B/R & ASW
05148	MANOJ MV	AEE EM (IEM)
05149	G PRADEEP KUMAR	TEO (AAD)
05150	PARIKHIT MOHANTY	RO
05154	R SELVARAJ	TOsT
05155	DELVADIA ASHVIN KUMAR KESHAVJI	RO
05156	SAT NARAYAN	AEE B/R & ASW
05158	MOIRANGTHEM BANKIM CHANDRA SINGH	TEO (AAD)
05159	MUKESH KUMAR	TEO (AAD)
05160	KARUNAKARA RAO GONAGA	RO
05161	DEEPA KUMAR BR	EDN OFFICER
05162	SANGRAM SINGH RATHORE	RO
05163	SUNKARA V RAMANA REDDY	EDN OFFICER
05164	SHIBU TV	RO
05165	BHARAT SINGH GURJAR	RO
05166	SATISH CHANDRA BHATT	RO
05167	RAVINDRA SINGH YADAV	RO
05168	ANIL KUMAR R	RO
05170	TILAK BAISHYA	RO
05171	SUDHAKARAN KP	RO
05172	VASUDEV BHANDARI	RO
05173	SUDHIR KUMAR	RO
05174	SUNIL KUMAR	RO
05175	PRADEEP KUMAR MU	RO
05177	PRAJEESH MV	RO
05178	N NITHIYANANDAM	RO
05179	R VELUMURUGAN	RO
05180	KRISHAN KUMAR YADAV	RO
05181	THORAT ANAND JALINDAR	RO
05182	SHALLAVI MISHRA	RO
05183	PRADEEPAN KAKKOOTTATHIL	RO
05184	DEEPAK KUMAR	EDN OFFICER

05185	RAKESH KUMAR SHARMA	EMAE
05186	SHAJI PK	RO
05187	RAKESH KUMAR	RO
05188	PARVEEN KUMAR	EMAE
05189	INDRANIL BASU MAJUMDAR	RO
05190	NARESH CHAUHAN	RO
05191	HARIOM SINGH GURUNG	RO
05192	NEPAL SINGH	EMAE
05193	BALWAN SINGH	RO
05194	S PAVAN KUMAR	RO
05195	VIJAY KUMAR CHAUDHARY	RO
05196	RAJESH NEGI	RO
05197	SANTOSH KUMAR	RO
05199	BAMAN DALPAT KUMAR	RO
05200	BRIJESH KUMAR PANDEY	RO
05201	RAKESH KUMAR PANDEY	RO
05202	VINOD KUMAR	RO
05203	KIRAN SHARMA	RO
05204	SACHIN KUMAR CHHETRI	RO
05206	ANURAG GUPTA	RO

—29 Aug 2017

SHORT SERVICE COMMISSION

CAPT TO BE MAJ

SS No	Name	Arm	Date of Substantive Major
43918	VIKAS SINGH	ARTY	20 October 2016
44082	BHUPENDER SINGH PATYAL	INF	18 April 2017
44094	ANKITA MUKHERJEE	AOC	18 April 2017
44102	KARTAR SINGH KHOKHAR	ASC	18 April 2017
44181	ABHISHEK KRISHNA VILAS PHARASI	AC	18 April 2017
44184	ANIL RANA	INF	18 April 2017
44219	SAGAR VATS	ASC	18 April 2017
45455	D MELLO VALENTINA JOHN	EME	20 April 2017
45478	DEEPANKAR HYANKI	ENGRS	20 April 2017
45530	SUGANDH SIROHI	EME	20 April 2017

MP SHARMA
Deputy Director
MS 8C

ARMY BRANCH

No. 13, dated 9th January 2018—The President is pleased to make the following promotions :—

(REGULAR ARMY)

(ARMY MEDICAL CORPS)

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR (N ASST)

SUBEDAR	RAJESH KUMAR MOURYA	JC698548W	30 JUL 2016*
SUBEDAR	DHARMESH KUMAR	JC698549Y	30 JUL 2016*
SUBEDAR	DIWAN SINGH	JC698572M	03 AUG 2016*

SUBEDAR	DALBIR SINGH	JC698574X	02 AUG 2016*
SUBEDAR	LAL BAHADUR PRASAD	JC698608A	06 AUG 2016*
SUBEDAR	MAHENDRA SINGH	JC698610X	03 AUG 2016*
SUBEDAR	PRAMOD KUMAR	JC698711L	02 AUG 2016*
SUBEDAR	MAHENDRA SINGH	JC699160X	03 AUG 2016*
SUBEDAR	SUBHASH	JC699180L	02 AUG 2016*
SUBEDAR	PRAFULL KUMAR MISHRA	JC698717M	03 AUG 2016*
SUBEDAR	SUCHIT KUMAR	JC698789W	03 AUG 2016*
SUBEDAR	SUSHIL KUMAR BHATT	JC698720M	04 AUG 2016*
SUBEDAR	RAJESH SINGH	JC699166Y	01 AUG 2016*
SUBEDAR	JAI BHAGAWAN	JC698762Y	02 AUG 2016*
SUBEDAR	KISHAN SINGH GURJAR	JC698779M	04 AUG 2016*

(* Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 29 July 2016 without effect on pay and allces)

SUBEDAR	AMBRE VIKASH SHANTARAM	JC698802P	03 AUG 2016**
---------	------------------------	-----------	---------------

(** Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Aug 2016 without effect on pay and allces)

SUBEDAR	BIJAY KUMAR SINGH	JC698780F	01 SEP 2016
SUBEDAR	ALEXANDER T	JC698806L	01 SEP 2016
SUBEDAR	SASTE ASHOK SOPANA	JC698781K	01 SEP 2016
SUBEDAR	SHER SINGH BISHT	JC698818A	01 OCT 2016
SUBEDAR	RANVIR SINGH	JC698819H	01 OCT 2016
SUBEDAR	BIRENDRA SINGH DEV	JC698821A	01 NOV 2016
SUBEDAR	RAJ NANDAN YADAV	JC698822H	01 NOV 2016
SUBEDAR	SANJAY KUMAR SINGH	JC698944M	07 DEC 2016***
SUBEDAR	RATAN SINGH	JC698823L	07 DEC 2016***

(*** Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 29 Nov 2016 without effect on pay and allces)

SUBEDAR	SATYAVEER SINGH	JC699080A	01 JAN 2017
SUBEDAR	UMED SINGH THAKUR	JC698947A	01 FEB 2017
SUBEDAR	RAJARAM SHAKYA	JC698949L	01 FEB 2017
SUBEDAR	AJAY KUMAR	JC698951H	01 MAR 2017
SUBEDAR	SUDHANSU KUMAR PRADHAN	JC699066N	01 MAR 2017
SUBEDAR	BHUPENDRA SINGH	JC698953N	01 MAR 2017
SUBEDAR	UMA SHANKAR SINGH	JC698967N	01 MAR 2017

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR (N TECH)

SUBEDAR	BHAGAT SINGH	JC694255N	01 MAR 2016
SUBEDAR	ILAM SINGH	JC694270H	01 MAR 2016
SUBEDAR	RANBIR SINGH	JC694612L	01 MAR 2016
SUBEDAR	ONKAR	JC694613N	01 MAY 2016
SUBEDAR	KAILASH CHANDRA SINGH	JC694631W	01 MAY 2016
SUBEDAR	MANOJ KUMAR	JC694946A	01 SEP 2016
SUBEDAR	SUVVADA SIVANARAYANA	JC694927P	01 SEP 2016
SUBEDAR	KUMARA H S	JC694947H	01 OCT 2016
SUBEDAR	DEVENDRA SINGH	JC694988M	01 OCT 2016
SUBEDAR	SHYAM SINGH	JC694941F	01 NOV 2016
SUBEDAR	SUBASH CHANDER	JC694899N	01 DEC 2016
SUBEDAR	KAMLESH KUMAR PANDEY	JC694307Y	07 DEC 2016*
SUBEDAR	N MAHENDRAN	JC694897H	07 DEC 2016*

(* Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 02 Dec 2016 without effect on pay and allces)

SUBEDAR	DINESH CHANDRA	JC694616F	01 JAN 2017
---------	----------------	-----------	-------------

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (N TECH)

NAIB SUBEDAR	JITENDRA KUMAR	JC697627Y	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	SANJEEV KAR	JC697628F	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	HARI SANKAR DUBEDI	JC697629K	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	JAGDISH CHANDER KASWA	JC697630Y	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	RANJIT KUMAR	JC697631F	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	AMRIT LAL BNARASI	JC697632K	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA SINGH	JC697780P	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	JAMAN LAL BARKESIA	JC697633M	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA SINGH	JC697634P	11 Apr 2016*
NAIB SUBEDAR	VIR PAL SINGH	JC697635X	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	MOHAMMAD VASI KHAN	JC697636A	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	ILIIYAS	JC697726F	04 Apr 2016*
NAIB SUBEDAR	BHUWAN CHANDRA UPRETI	JC697637H	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	JAGDISH SINGH KHATI	JC697638L	01 Apr 2016
(* Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	AMALENDU SATAPATHI	JC697639N	02 May 2016**
NAIB SUBEDAR	E RENUGANTHAN	JC697640H	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	KALE RAJU SADA SHIV	JC697641L	01 May 2016
(**Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	PREM CHAND	JC697642N	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	TUSHAR KANTI MANNA	JC697643W	13 Aug 2016***
NAIB SUBEDAR	SANTOSH KUMAR SINGH	JC697644Y	17 Aug 2016***
NAIB SUBEDAR	RAJESH KUMAR	JC697645F	11 Aug 2016***
NAIB SUBEDAR	SANTOSH KUMAR MORE	JC697646K	27 Oct 2016***
NAIB SUBEDAR	CHANDAN MANNA	JC697647M	01 Aug 2016
(***)Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	HANS RAJ	JC697727K	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	CHAVAN JANARDAN TUKARAM	JC697648P	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	PRATAP SINGH	JC697649X	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	UPENDAR KUMAR	JC697650M	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	LAXMAN SINGH	JC697651P	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	GM KATTI MANI	JC697652X	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	S JHON KENNEDY	JC697653A	22 Sep 2016@
(@ Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	VIKRAM SINGH	JC697654H	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	DHIRENDRA SINGH	JC697655L	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	SHAMBHU JHA	JC697656N	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	MANGAL KUMAR NAYAK	JC697657W	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	NIRAJ KUMAR SHUKLA	JC697728M	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	KULDEEP KUMAR	JC697659F	01 Nov 2016
NAIB SUBEDAR	CHETRAM MAHALA	JC697660W	01 Nov 2016
NAIB SUBEDAR	ANILKUMAR	JC697661Y	26 Nov 2016 @@
NAIB SUBEDAR	RAMBAHADUR	JC697729P	01 Nov 2016
NAIB SUBEDAR	SHETAKE SHARAD NARAYAN	JC697662F	21 Nov 2016@@
NAIB SUBEDAR	SUNIL SINGH	JC698073X	15 Nov 2016@@
NAIB SUBEDAR	JITENDRA SINGH	JC698166M	01 Nov 2016
(@@ Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	SHAJI KP	JC698074A	05 Dec 2016 #
NAIB SUBEDAR	PAWAN KUMAR SINGH	JC698075H	06 Dec 2016 #

NAIB SUBEDAR	GURAV VIVEK DATTA RAM	JC698076L	05 Dec 2016 #
NAIB SUBEDAR	ARUN KUMAR UPADHYAY	JC698077N	14 Dec 2016 #
NAIB SUBEDAR	AJAY KUMAR SINGH	JC698078W	02 Dec 2016 #
NAIB SUBEDAR	JAY MANGAL PANDEY	JC698079Y	19 Dec 2016 #
NAIB SUBEDAR	RAJESH KUMAR	JC698080N	03 Dec 2016 #
NAIB SUBEDAR	SURESH SHIRAHATTI	JC698081W	13 Dec 2016 #
NAIB SUBEDAR	NITIN RAWAT	JC698082Y	19 Dec 2016 #
NAIB SUBEDAR	SUBRAT KUMAR PRADHAN	JC698167P	10 Dec 2016 #
NAIB SUBEDAR	BHAGWAN KATHAT	JC698084K	19 Dec 2016 #
NAIB SUBEDAR	A JAYARAM	JC698085M	03 Dec 2016 #
NAIB SUBEDAR	MANICKAM MG	JC698086P	23 Dec 2016 #
NAIB SUBEDAR	AKHILESH KUMAR YADAV	JC698087X	03 Dec 2016 #
(# Granted seniority in the rank of Subedar wef 09 Nov 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	RASAL BABASAHEB GOVIND	JC698088A	03 Dec 2016 ##
NAIB SUBEDAR	KARAN SINGH	JC698089H	03 Dec 2016 ##
(## Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR YADAV	JC698090X	04 Jan 2017 ###
(### Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2017 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	RABENDRA KUMRA TIWARI	JC698091A	01 Feb 2017
NAIB SUBEDAR	HASE SUBHASH SOMNATH	JC698092H	10 Feb 2017 \$
(\$ Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2017 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	RAKESH NANDI	JC698168X	01 Mar 2017
NAIB SUBEDAR	ABHAY KUMAR SINGH	JC698093L	01 Mar 2017
NAIB SUBEDAR	ARVIND KUMAR YADAV	JC698094N	01 Mar 2017
NAIB SUBEDAR	AMIT KUMAR	JC698095W	01 Mar 2017
NAIB SUBEDAR	UPENDRA KUMAR RANA	JC698170P	01 Mar 2017

TO BE SUBSTANTIVE NAIB SUBEDAR (NUR ASSI)

HAVILDAR	PRAMOD KUMAR SINGH	13982912Y	NOW	JC702466N	27 FEB 2017*
(* Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	SABALE BALU NATHA	13984256F	NOW	JC701708Y	26 MAY 2017*
HAVILDAR	CHAVAN RAM CHANDRA SHIVAJI	13983358L	NOW	JC701789K	30 JUN 2016*
HAVILDAR	BORAGALLI RAM CHADRA SHRI SHAILA	13984207Y	NOW	JC701887K	27 OCT 2016*
(* Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	DURGA OJHA	13984218L	NOW	JC701340F	27 DEC 2016**
HAVILDAR	RAKESH KUMAR SINGH	13984211F	NOW	JC701610L	09 MAY 2016**
HAVILDAR	SUDHIR KUMAR	13984220H	NOW	JC701343P	20 DEC 2016**
(**Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	VYAVAHARE SUNIL RAMRAO	13984263X	NOW	JC701912X	01 NOV 2016***
HAVILDAR	JOYDEB HALDER	13984291K	NOW	JC701488A	01 MAR 2016
HAVILDAR	SHAIK MEERA	13984331A	NOW	JC701476L	02 MAR 2016***
HAVILDAR	SRINVAS KAMBALA	13984330X	NOW	JC701477N	01 MAR 2016
HAVILDAR	DAGADE SHASHI KANT NIVRUTTI	13984340F	NOW	JC701478W	01 MAR 2016
HAVILDAR	PRABHU DAYAL	13984326P	NOW	JC701709F	30 MAY 2016***
HAVILDAR	ROSHAN LAL DASTA	13984355K	NOW	JC701479Y	01 MAR 2016
HAVILDAR	KULBIR SINGH	13984359A	NOW	JC701480N	01 MAR 2016
HAVILDAR	PARAS NATH YADAW	13984365N	NOW	JC701481W	01 MAR 2016
HAVILDAR	KUMBHA RAM KHOKHAR	13984372K	NOW	JC701482Y	01 MAR 2016
HAVILDAR	ANIL KUMAR SINGH	13984364L	NOW	JC701483F	03 MAR 2016***
HAVILDAR	SATHYARAJAN K	13984393A	NOW	JC701484K	01 MAR 2016

HAVILDAR	NAGAR SINGH	13984387M	NOW	JC701485M	01 MAR 2016
HAVILDAR	RAM BAHADUR PRASAD YADAV	13984408X	NOW	JC701486P	01 MAR 2016
HAVILDAR	SUBASH TOPPO	13984456X	NOW	JC701710W	01 JUN 2016***
HAVILDAR	SUBODH KUMAR THAKUR	13984405K	NOW	JC701487X	15 MAR 2016***
HAVILDAR	ASHOK KUMAR JHA	13984411X	NOW	JC701489H	01 MAR 2016
HAVILDAR	PANKAJ KUMAR JHA	13984409A	NOW	JC701490X	01 MAR 2016
(***) Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	RATAN KUMAR RANJAN	13984420Y	NOW	JC701491A	01 APR 2016
HAVILDAR	MANOJ KUMAR CHOUDHARY	13984399F	NOW	JC701492H	01 APR 2016
HAVILDAR	RIPUNJAY KUMAR	13984418F	NOW	JC701493L	01 APR 2016
HAVILDAR	RAJIV KUMAR	13984417Y	NOW	JC701494N	01 APR 2016
HAVILDAR	BIJU KJ	13984443A	NOW	JC701495W	01 APR 2016
HAVILDAR	MANISH KUMAR	13984416W	NOW	JC701496Y	01 APR 2016
HAVILDAR	SATHEESH KUMAR EP	13984439X	NOW	JC701497F	01 APR 2016
HAVILDAR	MALESHWARI SINGH	13984406M	NOW	JC701498K	01 APR 2016
HAVILDAR	SUNIL KUMAR THAKUR	13984400L	NOW	JC701499M	01 APR 2016
HAVILDAR	ANJANI KUMAR RAI	13984471M	NOW	JC701500W	06 APR 2016@
HAVILDAR	PRAMOD PRAKASH MISHRA	13984486P	NOW	JC701501Y	01 APR 2016
HAVILDAR	GIRISH KUMAR JHA	13984489H	NOW	JC701502F	01 APR 2016
HAVILDAR	RAMASAREY YADAVA	13984546Y	NOW	JC701503K	01 APR 2016
HAVILDAR	SHAKKEER MUHAMAD	13984581F	NOW	JC701504M	01 APR 2016
HAVILDAR	K SATHEESH KUMAR	13984570P	NOW	JC701505P	01 APR 2016
HAVILDAR	B ANIL KUMAR	13984578F	NOW	JC701506X	04 APR 2016@
HAVILDAR	SANTHOSH GEORGE	13984563Y	NOW	JC701507A	01 APR 2016
HAVILDAR	AJITH RADHAKRISHNAN	13984576W	NOW	JC701508H	01 APR 2016
HAVILDAR	RAJESH V	13984587H	NOW	JC701509L	01 APR 2016
HAVILDAR	BUDDHADEB MONDAL	13984602M	NOW	JC701510A	01 APR 2016
HAVILDAR	L CHANDRA KANTA SINGHA	13984618X	NOW	JC701511H	01 APR 2016
HAVILDAR	MADAN KUMAR	13984637H	NOW	JC701512L	01 APR 2016
HAVILDAR	MANOJ KUMAR	13984638L	NOW	JC701513N	01 APR 2016
HAVILDAR	NAGENDRA KUMAR SINGH	13984649X	NOW	JC701514W	01 APR 2016
HAVILDAR	NIRAJ KUMAR RAI	13984650M	NOW	JC701611N	12 MAY 2016@
(@) Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	PESHKAR SINGH YADAV	13984702X	NOW	JC701711Y	08 JUN 2016%
HAVILDAR	RAMESHWAR KUMAR SINGH	13984709F	NOW	JC701712F	21 JUN 2016%
HAVILDAR	BIDYA SHANKAR SINGH YADAV	13984712F	NOW	JC701713K	07 JUN 2016
HAVILDAR	UMAKANT KUMAR	13984748A	NOW	JC701714M	08 JUN 2016%
HAVILDAR	MAIKOOLAL	13984745M	NOW	JC701715P	07 JUN 2016%
HAVILDAR	ROMANKI APPANNA	13984839K	NOW	JC701716X	16 JUN 2016%
HAVILDAR	KULDEEP	13984867W	NOW	JC701717A	08 JUN 2016%
(% Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	RAJENDRA SINGH	13984941M	NOW	JC701718H	01 JUL 2016
HAVILDAR	ANAND SINGH DHAUNI	13984940K	NOW	JC701719L	01 JUL 2016
HAVILDAR	SURESH KUMAR	13984969M	NOW	JC701720A	01 JUL 2016
HAVILDAR	RAVENDRA SINGH	13985012A	NOW	JC701721H	01 JUL 2016
HAVILDAR	RUDRA SINGH	13985077N	NOW	JC701722L	01 JUL 2016
HAVILDAR	ARVIND KUMAR	13985141A	NOW	JC701723N	19 JUL 2016%%
HAVILDAR	GOVIND SINGH SAMANT	13985150F	NOW	JC701889P	29 OCT 2016%%
HAVILDAR	DESAI CHANDRAKANT PANDURANG	13983155F	NOW	JC701724W	01 JUL 2016
(%%) Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 2016 without effect on pay and allces)					

HAVILDAR	MD SARBAR ALAM	13984217H	NOW	JC701785N	02 AUG 2016%%%
HAVILDAR	PRAVESH SINGH	13984223W	NOW	JC701786W	01 AUG 2016
HAVILDAR	LAL KUMAR P S	13984447W	NOW	JC701787Y	01 AUG 2016
HAVILDAR	RAJENDER SINGH CHAUHAN	13984632K	NOW	JC701788F	06 AUG 2016%%%
(% % % Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	SANJEET KUMAR PATEL	13984805W	NOW	JC701883N	01 SEP 2016
HAVILDAR	ARUN KUMAR MISHRA	13985144N	NOW	JC701884W	01 SEP 2016
HAVILDAR	BARUN KUMAR JHA	13985163Y	NOW	JC701885Y	01 SEP 2016
HAVILDAR	BHAGIRATH SINGH	13985224L	NOW	JC701886F	01 SEP 2016
HAVILDAR	BASUDEV RUIDAS	13984703A	NOW	JC701888M	13 OCT 2016#
HAVILDAR	LAKH RAM GAUTAM	13985250M	NOW	JC701890K	05 NOV 2016#
HAVILDAR	SANTOSH SINGH	13985257W	NOW	JC701891M	22 OCT 2016#
HAVILDAR	RENGASAMY N	13985358K	NOW	JC701892P	21 OCT 2016#
HAVILDAR	RAKESH KUMAR	13985361K	NOW	JC701893X	13 OCT 2016#
HAVILDAR	BHOOP SINGH	13985256N	NOW	JC701894A	18 OCT 2016#
(# Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	PATEL MANU BHAI MADHA BHAI	13985320A	NOW	JC701913A	01 NOV 2016
HAVILDAR	MAMMAN KHAN	13985329P	NOW	JC701914H	01 NOV 2016
HAVILDAR	SHYJU AK	13985380P	NOW	JC701915L	01 NOV 2016
HAVILDAR	PALVE SAMPAT TUKA RAM	13985414X	NOW	JC701916N	01 NOV 2016
HAVILDAR	GULSHAN KUMAR	13985441F	NOW	JC701917W	01 NOV 2016
HAVILDAR	JAY PRAKASH SINHA	13985444P	NOW	JC701918Y	01 NOV 2016
HAVILDAR	DHARMENDRA KUMAR SINGH	13985454Y	NOW	JC701960X	25 NOV 2016***
HAVILDAR	HARISH KUMAR	13985515L	NOW	JC701961A	25 NOV 2016***
(* * # Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	JAHIR RAIHAN	13985692L	NOW	JC701967F	05 DEC 2016\$
HAVILDAR	RAJESH KUMAR SINGH	13985731Y	NOW	JC702073X	05 DEC 2016\$
HAVILDAR	RAKESH DUTT SHARMA	13985723A	NOW	JC702074A	05 DEC 2016\$
HAVILDAR	VIJAY BAHADUR YADAV	13985732F	NOW	JC702075H	06 DEC 2016\$
HAVILDAR	JAI KUMAR PANICKER	13985713W	NOW	JC702076L	03 DEC 2016\$
HAVILDAR	MATHEW M VARGHESE	13985712N	NOW	JC702077N	03 DEC 2016\$
HAVILDAR	SHIV SHANKAR SINGH	13985733K	NOW	JC702078W	03 DEC 2016\$
HAVILDAR	KULDIP SINGH	13985776Y	NOW	JC702079Y	26 DEC 2016\$
HAVILDAR	MOHAN LAL	13985775W	NOW	JC702080N	03 DEC 2016\$
HAVILDAR	DHADAMBE DATTATRAY DAMODAR	13985800K	NOW	JC702081W	03 DEC 2016\$
HAVILDAR	SOLANKAR BALASO DNYAN DEO	13985837L	NOW	JC702082Y	05 DEC 2016\$
HAVILDAR	MATHURA PRASAD	13985780F	NOW	JC702083F	02 DEC 2016\$
HAVILDAR	VARPE HANUMANT LAXMAN	13985836H	NOW	JC702084K	01 DEC 2016\$
HAVILDAR	BALRAJ SINGH	13985859K	NOW	JC702085M	03 DEC 2016\$
HAVILDAR	S KAMALUDHEEN	13986006Y	NOW	JC702086P	17 DEC 2016\$
(\$ Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 09 Nov 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	ASHOK SINGH	13985879X	NOW	JC702116F	17 DEC 2016\$\$
(\$ \$ Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	NARAYAN SINGH	13985915X	NOW	JC702217P	15 JAN 2017*&
HAVILDAR	SHIV KUMAR	13985905N	NOW	JC702218X	25 JAN 2017
HAVILDAR	JAGDISH PRASAD SINGH	13985984N	NOW	JC702219A	06 JAN 2017
(* & Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2017 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	SUDARSHAN KUMAR	13985950A	NOW	JC702230Y	01 FEB 2017
HAVILDAR	TARA DUTT	13986119F	NOW	JC702231F	01 FEB 2017
HAVILDAR	N RAJENDREN	13986513M	NOW	JC702233M	27 FEB 2017**@

HAVILDAR	RAMA NAND SAHANI	13986662A	NOW	JC702283X	09 FEB 2017**@
(**@ Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2017 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	BIJU PUTHIYAN CHERI	13986651N	NOW	JC702285H	01 MAR 2017
HAVILDAR	RADA VENAKATARAMANA	13986713H	NOW	JC702286L	01 MAR 2017
HAVILDAR	SUDHEERENDRA SINGH	13986740M	NOW	JC702287N	04 MAR 2017***@
HAVILDAR	BISHENDRA SINGH	13986752F	NOW	JC702288W	01 MAR 2017
HAVILDAR	JITENDRA SINGH	13986743A	NOW	JC702289Y	01 MAR 2017
HAVILDAR	DHARMENDRA KUMAR SINGH	13986746N	NOW	JC702291W	06 MAR 2017***@
HAVILDAR	GANESAN R	13986907L	NOW	JC702292Y	01 MAR 2017
HAVILDAR	ANIL KUMAR N	13986797F	NOW	JC702498W	20 MAR 2017***@
(***@ Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2017 without effect on pay and allces)					

TO BE SUBSTANTIVE NAIB SUBEDAR (N TECH)

NAIK	KARUNAKARA RAMANAIAH	15411179Y	NOW	JC702293F	13 FEB 2017
NAIK	JAGTAP PUNDLIK TUKARAM	15411542K	NOW	JC702294K	22 FEB 2017
NAIK	G SATHISH KUMAR	15413022X	NOW	JC702295M	13 FEB 2017
NAIK	RAJEEV KUMAR SINGH	15413786W	NOW	JC702296P	04 FEB 2017
NAIK	SAMOD KUMAR	15414568K	NOW	JC702297X	03 FEB 2017
NAIK	BRAHM PAL SINGH	15414590P	NOW	JC702298A	13 FEB 2017
NAIK	PRADEEP KUMAR SINGH	15414930M	NOW	JC702299H	04 FEB 2017
NAIK	RANJAN KUMAR	15416472A	NOW	JC702300M	03 FEB 2017
NAIK	LYMOIN LANGBA	15416911A	NOW	JC702301P	04 FEB 2017
NAIK	IRSHAD KHAN	15417933L	NOW	JC702302X	04 MAR 2017
NAIK	DHARAMENDRA SINGH	15417972K	NOW	JC702303A	04 FEB 2017
NAIK	SHOIBAM SUNDAR SINGH	15418059H	NOW	JC702304H	14 FEB 2017
NAIK	DILEEP KUMAR KV	15418261W	NOW	JC702305L	13 FEB 2017
NAIK	ARVIND PRASAD SINGH	15418760L	NOW	JC702306N	04 FEB 2017
NAIK	VILLURI JAGADEESH BABU	15418801K	NOW	JC702307W	04 FEB 2017
NAIK	RAM SEWAK SINGH	15420225K	NOW	JC702308Y	21 FEB 2017
NAIK	FAYAZ AHMAD RASHIE	15420785W	NOW	JC702309F	21 FEB 2017
NAIK	PARESH RANA	15420875X	NOW	JC702310W	14 FEB 2017
NAIK	AJAY SINGH CHIB	15420924P	NOW	JC702311Y	13 FEB 2017
NAIK	GOLAK BIHARI MOHANTY	15420983F	NOW	JC702312F	14 FEB 2017
NAIK	DUSHYANT KUMAR	15417927X	NOW	JC702313K	03 FEB 2017
NAIK	BASANT KUMAR	15421353N	NOW	JC702314M	13 FEB 2017
NAIK	NIHAR RANJAN NAYAK	15423531K	NOW	JC702315P	04 FEB 2017
NAIK	MALLIKARJUNA RAO A	15423704W	NOW	JC702316X	13 FEB 2017
NAIK	SAGAR MUKHERJEE	15424059Y	NOW	JC702317A	10 FEB 2017
NAIK	TEJ PARTAP SINGH	15424249L	NOW	JC702318H	21 FEB 2017
NAIK	ANAND PRATAP SINGH	15424387M	NOW	JC702319L	04 FEB 2017
NAIK	SUNIL KUMAR	15424431L	NOW	JC702320A	14 FEB 2017
NAIK	UPENDER SINGH CHAUHAN	15424637H	NOW	JC702321H	16 FEB 2017
NAIK	RAVINDER KUMAR	15424666X	NOW	JC702322L	25 MAR 2017
NAIK	RAVI KUMAR	15424706N	NOW	JC702323N	09 MAR 2017
NAIK	BHUNKESHWAR YADAV	15424760F	NOW	JC702324W	11 FEB 2017
NAIK	NITIN KUMAR AWASTHI	15424768N	NOW	JC702325Y	13 FEB 2017
NAIK	MANISH KUMAR	15424770L	NOW	JC702326F	11 FEB 2017
NAIK	PRAKASH CHANDRA JHA	15425080N	NOW	JC702327K	03 FEB 2017
NAIK	RAVENDER KUMAR SINGH	15425110A	NOW	JC702328M	04 FEB 2017
NAIK	KULDEEP KUMAR	15425215K	NOW	JC702329P	03 FEB 2017
NAIK	RAVI SHEKHAR	15425245F	NOW	JC702330K	04 FEB 2017

NAIK	SHOVON CHAKRABORTY	15425318H	NOW	JC702331M	14 MAR 2017
NAIK	BASAVARAJ MATHAPATI	15425337N	NOW	JC702332P	14 FEB 2017
NAIK	RAKESH SINGH	15425342Y	NOW	JC702333X	13 FEB 2017
NAIK	RITESH KUMAR	15425354N	NOW	JC702334A	06 FEB 2017
NAIK	PAWAR PARASHRAM POPAT	15425527A	NOW	JC702335H	14 MAR 2017
NAIK	PREM CHAND DHAKA	15425647Y	NOW	JC702336L	04 FEB 2017
NAIK	MUKESH KUMAR	15425672X	NOW	JC702337N	06 FEB 2017
NAIK	DINESH KUMAR KHEDAR	15425674H	NOW	JC702338W	16 FEB 2017
NAIK	VIRENDRA SINGH	15425681Y	NOW	JC702339Y	04 MAR 2017
NAIK	BALBEER SINGH	15425682F	NOW	JC702340N	14 MAR 2017
NAIK	OM PRAKASH FAGANA	15425960K	NOW	JC702341W	02 MAR 2017
NAIK	ROHIT KUMAR GOUDA	15426662A	NOW	JC702342Y	27 FEB 2017

(* Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 29 Nov 2016 without effect on pay and allces)

A K TIWARI
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2018

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2018

www.dop.nic.in

DOPGIPF— [PART I—SEC. 4]

LAZAR

SAGAYA RAJ

Digitally signed by
LAZAR SAGAYA RAJ

Date: 2018.01.13

11:07:01 +05'30'